



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18—जुलाई 24, 2009 (आषाढ़ 27, 1931)

No. 29]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18—JULY 24, 2009 (ASADHA 27, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(निजी स्टाफ)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2009

अवैतनिक सर्जन की नियुक्ति

सं. 381, दिनांक 28 मई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी की 01 जनवरी 2009 से अपने व्यक्तिगत अवैतनिक स्टाफ में नियुक्ति करते हैं:—

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी

ले. जनरल ओ पी मैथ्यु, ए वी एस एम, एस एम कमांडेंट, आर्मी अस्पताल (आर एण्ड आर)

यश पाण्डे

ब्रिगेडियर

उप म नि स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 382, दिनांक 28 मई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

(स्थाई आयोग)

ले. के पद पर 13 दिसम्बर 2008 से

निम्नलिखित टी ई एस-12 पाठ्यक्रम के कैंडिडेटों की सशस्त्र सेना में ले. के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2008 से स्थायी रूप से विशेष निर्देश 3/99 के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

आई सी नं., नाम, आर्म/सर्विस

(आई सी)-71111एफ, डबलु मिश्रा, ई एम ई

(आई सी)-71112के, राधे श्याम यादव, ई एम ई

(आई सी)-71113एम, सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, इंजीनियर्स

(आई सी)-71114पी, देव अमेय गजानन, सिग्नल्स

(आई सी)-71115एक्स, मल्लिनाथ, सिग्नल्स

(आई सी)-71116ए, त्रिभुवन बिष्ट, ई एम ई

(आई सी)-71117एच, गौरव पन्त, इंजीनियर्स

(आई सी)-71118एल, रोविन बी कुट्टी, ई एम ई

- (आई सी)-71119एन, शरत वी आर, ई एम ई  
 (आई सी)-71120एच, प्रियेश श्रीवास्तव, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71121एल, रविन्द्र भाखर, ई एम ई  
 (आई सी)-71122एन, चन्दन विश्वकर्मा, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71123डब्ल्यू, मधुर मलिक, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71124वाई, संदीप कुमार, ई एम ई  
 (आई सी)-71125एफ, आशीष धंकड, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71126के, वीरेन्द्र केशरी, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71127एम, कुलदीप सिंह, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71128पी, नीलकांत कुमार, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71129एक्स, दक्ष दीप विश्णोई, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71130एम, एम सुरेन्द्र कुमार, ई एम ई  
 (आई सी)-71131पी, गौरव राज, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71132एक्स, अर्शदीप सिंह गिल, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71133ए, विवेक नेगी, ई एम ई  
 (आई सी)-71134एच, दीपांशु बल्लोनी, इंजनियर्स  
 (आई सी)-71135एल, विशाल ममगाई, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71136एन, रीजेश जयराजन, एएडी  
 (आई सी)-71137डब्ल्यू, एस कोच्चेलवन, ई एम ई  
 (आई सी)-71138वाई, हिमांशु रावत, ई एम ई  
 (आई सी)-71139एफ, बरूण शर्मा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71140डब्ल्यू, आनंद वी, ई एम ई  
 (आई सी)-71141वाई, राहुल हरमन, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71142एफ, विराज गुलाटी, ई एम ई  
 (आई सी)-71143के, जुगल शर्मा, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71144एम, लक्ष्य जैन, इन्फैन्ट्री  
 (आई सी)-71145पी, अनिरुद्ध रमेश कुमार सुनकारा, इन्फैन्ट्री  
 (आई सी)-71147ए, अभिषेक रानडे, एएससी  
 (आई सी)-71148एच, श्रीराम एस वी, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71149एल, रजत बहल, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71150ए, आशीष साह, ई एम ई  
 (आई सी)-71151एच, गगनदीप मिश्र, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71152एल, लक्ष्य शर्मा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71153एन, मोहित कुमार शर्मा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71154डब्ल्यू, सुयश रघुवंशी, ई एम ई  
 (आई सी)-71155वाई, अनुराग कुमार, ई एम ई  
 (आई सी)-71156एफ, रौनल्ड डैनियल डिसुजा, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71157के, नाम अशोक कुमार मैटे, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71158एम, अंकुर गुप्ता, ई एम ई  
 (आई सी)-71159पी, एम कृष्णा चैतन्या, ई एम ई  
 (आई सी)-71160के, मनोष नायर, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71161एम, संकल्प सोनी, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71162पी, प्रशान्त नेमा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71163एक्स, दीपक जैन, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71164ए, पी ए अपाचा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71165एच, अभिनीत कुमार, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71166एल, शोभित मेहता, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71167एन, हिमांशु सिंह, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71168डब्ल्यू, अभिषेक बिस्वास, ई एम ई  
 (आई सी)-71169वाई, सुशील कुमार, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71170एन, सिगम श्रीवन सिंह, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71171डब्ल्यू, विक्रम जीत सिंह ढहिया, ई एम ई  
 (आई सी)-71172वाई, अंकित बुद्धराजा, सिग्नल्स  
 (आई सी)-71173एफ, अरूण भास्कर के, ई एम ई  
 (आई सी)-71174के, आर वमशी क्रिष्णन, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71175एम, खेत्रीमयुम चंगखोम्बा, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71176पी, ओ जोतीन कुमार, आर्टी  
 (आई सी)-71177एक्स, विप्लव भट्टाचार्य, ई एम ई  
 (आई सी)-71178ए, दीपक सिंह, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71179एच, दीपाजंन बन्धोपाध्याय, ई एम ई  
 (आई सी)-71180एक्स, पाटील गुरुराज प्रल्हाद, इंजीनियर्स  
 (आई सी)-71181ए, विवेक सुब्रमणियम, ई एम ई  
 (आई सी)-71182एच, काले विक्रांत खंडेराव, आर्टी  
 (आई सी)-71183एल, सत्येन कुमार, ई एम ई

चंद्रा विश्वनाथन  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

## सेना शाखा

सं. 383, दिनांक 28 मई 2009--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

## नियमित सेना

## (विशेष आयोग)

निम्नलिखित 22 जी सी को अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 13 दिसम्बर 2008 के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है:--

आई एम ए सं., सैन्य सं., पैतृक आर्म/सर्विस, नाम, एस सी सं., आवंटित सर्विस आर्म

(एस-668), 9512773एच, ए ई सी, राजेश कुमार सिंह चौहान, (एस सी-00564एच), इन्फैन्ट्री

(एस-666), 3995618ए, इन्फैन्ट्री, अशवनी कुमार, (एस सी-00565एल), इन्फैन्ट्री

(एस-656), 15380630डब्ल्यू, सिग्नल्स, कोप्पूला सत्यनारायणा, (एस सी-00566एन), ए ए डी

(एस-659), 7778907एन, सी एम पी, प्रदीप एम, (एस सी-00567डब्ल्यू), इंजीनियर्स

(एस-674), 4081407एम, इन्फैन्ट्री, रूप सिंह नेगी, (एस सी-00568वाई), इन्फैन्ट्री

(एस-640), 14643881एल, ई एम ई, राजीव रंजन, (एस सी-00569एफ), ई एम ई

(एस-655), 14826600एक्स, ए एस सी, श्रीजेश एस, (एस सी-00570डब्ल्यू), आर्टी

(एस-675), 15463904पी, ए सी, विनोद कादयॉन, (एस सी-00571वाई), एसी

(एस-651), जेसी-376989एन, सिग्नल्स, आश्रम प्रसाद शर्मा, (एस सी-00572एफ), सिग्नल्स

(एस-660), 9512660ए, ए ई सी, आनन्द जी पणिक्कर, (एस सी-00573के), इंजीनियर्स

(एस-667), 4079101एल, इन्फैन्ट्री, मोहन चन्द्र, (एस सी-00574एम), इन्फैन्ट्री

(एस-662), 9512638पी, ए ई सी, हरीप्रत सिंह, (एस सी-00575पी), आर्टी

(एस-652), 2487455के, इन्फैन्ट्री, रविन्द्र सिंह तंवर, (एस सी-00576एक्स), इंजीनियर्स

(एस-658), 14409137एक्स, आर्टी, अमरनाथ, (एस सी-00577ए), आर्टी

(एस-669), 14649977के, ई एम ई, मधु ए टी, (एस सी-00578एच), ई एम ई

(एस-654), 14627897एम, ई एम ई, जाडेजा भगीरथ सिंह, (एस सी-00579एल), ई एम ई

(एस-657), 6395707के, ए एस सी, राज किशोर कनवासी, (एस सी-00580ए), आर्टी

(एस-670), 9512802एम, ए ई सी, सोमेन्द्र कुमार शर्मा, (एस सी-00581एच), इन्फैन्ट्री

(एस-649), 9512788एल, ए ई सी, सौरव चक्रवर्ती, (एस सी-00582एल), इन्फैन्ट्री

(एस-653), 15769912एच, ए ए डी, दुर्लभ कुमार मेथी, (एस सी-00583एन), आर्टी

(एस-664), 6940089एफ, ए ओ सी, मुस्कनाटील एंथोनी जॉय, (एस सी-00584डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

(एस-663), 15464099एच, ए सी, राज कुमार शर्मा, (एस सी-00585वाई), मैक

राहुल शर्मा  
ले कर्नल  
एम एस 8 बी

## थल सेना विभाग/एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं. 384, दिनांक 28 मई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

## नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

नाम, पदोन्नति की तारीख

अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-762906ए), 15 नवम्बर 2008

ब्रजेश कुमार त्रिपाठी (जेसी-762908एल), 15 नवम्बर 2008

शेषमणी तिवारी (जेसी-762909एन), 15 नवम्बर 2008

मनोज कोठारी (जेसी-762910एच), 15 नवम्बर 2008

कुलदीप सनोटीया (जेसी-762911एल), 15 नवम्बर 2008

अख्तर अली (जेसी-762912एन), 15 नवम्बर 2008

जगन्नीवास शुक्ला (जेसी-762913डब्ल्यू), 15 नवम्बर 2008

सूर्यनारायण पांडे (जेसी-762914वाई), 15 नवम्बर 2008

एन के कश्मीरा  
अवर सचिव

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 385, दिनांक 29 मई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/-रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की

परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं (पूर्व-परिशोधित)।

पिन सं., नाम, स्थापना/प्रयोगशाला, नियुक्ति की तिथि

2008 एबी 1010, श्री संकल्प शर्मा, ए. डी. ई., बंगलौर, 21 मई 2008

2008 एबी 1524, श्री शिवानंद त्रिपाठी, ए. एस. एल., हैदराबाद, 10 सितम्बर 2008

2008 एबी 1076, श्री शुब्बाराव नुवुला, ए. एस. एल., हैदराबाद, 21 मई 2008

2008 एबी 1095, श्री शादाब अहमद खान, ए. एस. एल., हैदराबाद, 21 मई 2008

2005 एबी 1615, श्री जे सैथिल कुमार, ए. एस. एल., हैदराबाद, 14 अप्रैल 2005

2007 एबी 1048, श्री जी ओ वातकर, सी. ए. आई. आर., बंगलौर, 23 मई 2007

2008 एबी 1207, श्री प्रवीण कुमार, डेयर, बंगलौर, 21 मई 2008

2006 एबी 1052, श्री वीरेन्द्र कुमार जायसवाल, डेयर, बंगलौर, 27 अप्रैल 2006

2008 एबी 1242, श्री अनरण्य यादव, डी. ई. ए. एल., देहरादून, 21 मई 2008

2008 एबी 1247, श्री अलोक कुमार मौर्या, डी. ई. ए. एल., देहरादून, 21 मई 2008

2008 एबी 1255, श्री वी मलिकार्जुना रेड्डी एम, डी. ई. बी. ई. एल., बंगलौर, 21 मई 2008

2006 एबी 1069, सुश्री पी नीरजा, डी. आर. डी. एल., हैदराबाद, 27 अप्रैल 2006

2008 एबी 1034, श्री दिनेश तिलटे, जी. टी. आर. ई., बंगलौर, 21 मई 2008

2007 एबी 1246, श्री सतव जयंत उत्तम, एच. ई. एम. आर. एल., पूणे, 23 मई 2007

2008 एबी 1127, श्री प्रणव कुमार, ईसा, दिल्ली, 21 मई 2008

2007 एबी 1266, श्री रौकी कुमार, आई. आर. डी. ई., देहरादून, 23 मई 2007

2008 एबी 1129, श्री अजय कुमार, आई. टी. आर., बालासोर, 21 मई 2008

2008 एबी 1514, श्री विद्धा शंकर पांडे, लेसटेक, दिल्ली, 12 सितम्बर 2008

2008 एबी 1462, श्री इलियापेरूमल एस, एल. आर. डी. ई., बंगलौर, 25 जून 2008

2008 एबी 1225, श्री अभय कुमार सोरी, एन. एस. टी. एल., विशाखापत्तनम, 21 मई 2008

2008 एबी 1285, श्री नवीन कुमार वाडे, आर. सी. आई., हैदराबाद, 21 मई 2008

2008 एबी 1277, श्री चंद्र शेखर, आर. सी. आई., हैदराबाद, 21 मई 2008

2008 एबी 1239, श्री आशुतोष अभिषेक, आर एंड डी. ई. (ई), पूणे, 21 मई 2008

2007 एबी 1215, श्री होशियार सिंह यादव, आर. एंड डी. ई. (ई), पूणे, 28 मई 2007

2008 एबी 1352, श्री कपिल वीरमणी, स्पीक, दिल्ली, 21 मई 2008

2008 एबी 1382, श्री महेश कुमार, टी. बी. आर. एल., चंडीगढ़ 21 मई 2008

2008 एबी 1389, श्री दविन्द्र कुमार, टी. बी. आर. एल., चंडीगढ़ 21 मई 2008

2005 एबी 1713, श्री राजीव कुमार, टी. बी. आर. एल., चंडीगढ़ 03 जून 2005

2007 एबी 1147, श्री अखिलेन्द्र कृष्णा, डब्ल्यू. ई. एस. इ. ई., दिल्ली 23 मई 2007

टी अब्दुर्रज्जाक  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(स्थायी कमीशन)

सं. 386, दिनांक 29 मई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., पदोन्नति की तारीख

ब्रिगे. ए एम कमलम, (एनआर-15381के), 01 जनवरी 2009

ले. कर्नल से कर्नल

कर्नल टी जकारियास, (एनआर-16417के), 01 फरवरी 2009

कर्नल बी वी मरियम, (एनआर-16313एच), 25 जनवरी 2008

कर्नल अरूण बाला, (एनआर-16006एल), 01 जनवरी 2009

कर्नल पी कृष्णावेणी, (एनआर-15986एल), 01 जनवरी 2007

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एम एन एस

## थल सेना शाखा

सं. 387, दिनांक 29 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

## नियमित सेना

## स्थायी कमिशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ले. कर्नल (और समकक्ष) से कर्नल (चयन) (और समकक्ष) के पद पर

एम के गर्ग, (एमआर-05590एन), 01 नवम्बर 2007

यश पाण्डे

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक स. से. चि. से. (एच आर)

## सेना शाखा

सं. 388, दिनांक 29 मई 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

## नियमित सेना

## स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

नाम, आईसी सं., आर्म और सब्सर्टेंटिव तिथि

एस एस रावतेला (आईसी-35151एक्स), इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

अमरीक सिंह (आईसी-37883एम), इन्फैन्ट्री, 27 अप्रैल 2008

एस के चौधरी (आईसी-40181वाई), आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

नितिन चोपड़ा (आईसी-40252पी), आर्टी, 19 दिसम्बर 2007

सी वी भास्कर (आईसी-40883एक्स), इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2008

एन के शर्मा (आईसी-40973वाई), मैक इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2008

राजेन कदयान (आईसी-41020एच), एएससी, 24 दिसम्बर 2008

पी एस वर्दी (आईसी-41033ए), ईएमई, 24 दिसम्बर 2008

एस चिकारा (आईसी-41036एन), एएससी, 24 दिसम्बर 2008

टी के शशिधरण (आईसी-42253डब्ल्यू), इंजीनियर, 13 जून 2008

आर माथुर (आईसी-42705एन), इंजीनियर्स, 25 दिसम्बर 2008

पीए भीकाजी (आईसी-42715एक्स), इंजीनियर्स, 25 दिसम्बर 2008

राजेन्द्र पाण्डे (आईसी-42741वाई), सिग्नल्स, 25 दिसम्बर 2008

डी एस संधू (आईसी-37818एम), आर्टी, 12 नवम्बर 2007

राजेश्वर सिंह (आईसी-37915के), एओसी, 27 अप्रैल 2008

देवेन्द्र सिंह (आईसी-37974डब्ल्यू), एसी, 11 नवम्बर 2008

सुरेश राणा (आईसी-38369पी), एओसी, 22 दिसम्बर 2005

भारत सिंह (आईसी-38715ए), एएडी, 07 जून 2006

आर एम भट्टनागर (आईसी-38916वाई), इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006

आशीष मेहता (आईसी-38929डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006

एस के डी पटनायक (आईसी-40698के), इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2008

एम के शर्मा (आईसी-40767पी), मैक इन्फैन्ट्री, 24 दिसम्बर 2008

एस सी पाण्डे (आईसी-40931एम), आर्टी, 24 दिसम्बर 2008

पी पी राय (आईसी-27315एन), इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

अजय गोयल

उप निदेशक

एमएस-8ए

सं. 389, दिनांक 29 मई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:—

## नियमित सेना

## मिलिट्री नर्सिंग सेवा

(स्थायी कमीशन)

ले. कर्नल से ले. कर्नल सेलेक्ट

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. और पदोन्नति की तारीख

ले. कर्नल लुइज दहल (एनआर-16354एम), 17 सितम्बर 2003

ले. कर्नल पी कृष्णवेणी (एनआर-15986एल), 10 अप्रैल 2001

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

## सेना शाखा

सं. 390, दिनांक 01 जून 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

नाम, डब्ल्यू एस, आर्म और ले. कर्नल दिनांक से

मोनिका मिश्रा, (00149), इंजीनियर्स, 09 सितम्बर 2007

सोनिया अनन्द, (00165), ईएमई, 09 सितम्बर 2007

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक, एमएस-8सी

सेना शाखा  
सं. 391, दिनांक 01 जून 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी आयोग

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं., नाम, आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

(40261डब्ल्यू), डी त्रिपाठी, आर्टी, 19 दिसम्बर 2001

अजय गोयल

उप निदेशक, एमएस-8ए

## सेना शाखा

सं. 392, दिनांक 01 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एम दहिया (एमआर-06741एन)(23416), एएमसी, 04 जनवरी 2007

दीप्ती मुटरेजा तिलक (एमआर-06946एच)(23495), एएमसी, 06 जनवरी 2009

टीवीएसवीजी के तिलक (एमआर-06947एन)(24458), एएमसी, 06 जनवरी 2009

पी रेंजन (एमआर-06849एल)(एफ-23472), एएमसी, 08 जनवरी 2008

समरेश साहु (एमआर-06949डब्ल्यू)(एफ-24459), एएमसी, 08 जनवरी 2009

हिमांशु स्वामी (एमआर-06967वाई)(एफ-24460ए), एएमसी, 06 जनवरी 2009

फ्लाईट लेफ्टिनेन्ट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

सैलेश (एमआर-07796के)(एफ-26916), एएमसी, 02 अगस्त 2007

सुरजीत कुमार द्विवेदी (एमआर-08050ए)(27646), एएमसी, 30 दिसम्बर 2008

यश पाण्डे

ब्रिगे.

उप डीजीएफएमएस (एचआर)

## सेना शाखा

सं. 393, दिनांक 01 जून 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## ले. से कप्तान

आई सी सं., नाम और आर्म

(66044) पुनीत बेदी, आर्टी

(66045) सुरेन्द्र सिंह, एसी

(66046) अनिल कुमार शर्मा, एएडी

(66049) एम श्याम, इन्फैन्ट्री

(66050) सिद्धार्थ नेहरा, एएससी

(66051) लखपत सिंह, इन्फैन्ट्री

(66053) फतेह सिंह, सिग्नल्स

(66054) जीआरएस राजा, इन्फैन्ट्री

(66056) लिम्बू पारस, इन्फैन्ट्री

(66057) विक्रान्त प्राशर, आर्टी

(66059) नितिन रावत, आर्टी

(66061) विजय सिंह भदौरिया, इन्फैन्ट्री

(66063) गौरव नयोल, एसी

(66064) शरद त्यागी, एओसी

(66065) संदीप सिंह चावला, आर्टी

(66066) कथारिया मनीष कुमार गगन सिंह, इन्फैन्ट्री

(66067) राजकुमार जोनसन सिंह, एएडी

(66069) अनुभव कंचन, आर्टी

(66070) तुषार चौधरी, एएससी

(66072) मोहम्मद असलम खान, एसी

(66073) प्रदीप कुमार शर्मा, आर्टी

(66074) अरविन्द राना, एएससी

(66075) सुब्रत मिश्रा, मेक

(66076) डी श्रीरामकुमार, आर्टी

(66079) के राकेश सिंह, एएससी

(66080) विपलव, इन्फैन्ट्री

(66082) गोखले अमरेन्द्र अनंत, इन्फैन्ट्री

(66084) महेश के एन, सिग्नल्स

(66085) के आर बेबी कृष्णन, इन्फैन्ट्री

(66087) यू सचिन, एसी

(66088) अनुज शर्मा, इन्फैन्ट्री	(01142) गायत्री हुडा, इंजीनियर्स
(66090) अमित कुमार, इन्फैन्ट्री	(01150) अनुजा हनमन्त वरुदकार, इंजीनियर्स
(66092) हिमांशु जोशी, इंजीनियर्स	(01153) पूनम बोरा, इंजीनियर्स
(66093) राघवेन्द्र, एएससी	(01159) प्रग्या सिंहवी, सिग्नल्स
(66094) मयंक मालविय, एएडी	(01160) गौरी तिवारी, इंजीनियर्स
(66095) प्रियतोश अनिल मंगरूलकर, ई एम ई	(01172) पिल्लई दिव्या गोपीनाथन, इंजीनियर्स
(66096) अशोक कुमार पुरी, आर्टी	(01177) प्रियंका सिन्दवानी, ईएमई
(66102) मनीष चौहान, आर्टी	(01180) सस्मिता बेहरा, ईएमई
(66103) चिनखोथंग टोनसिंग, इन्फैन्ट्री	(01182) नीतू, इंजीनियर्स
(66104) गुरमीत रतुरी, इंट	(01191) भगत राधीका चन्द्रकान्त, सिग्नल्स
(66105) मनीष कुल्हारी, इन्फैन्ट्री	(01202) आशा रोशनी एम एस, सिग्नल्स
(66106) अमित प्रसाद, आर्टी	(01205) तनूमलिक, एओसी
(66107) भगीरथ सिंह जोधा, इन्फैन्ट्री	(01206) उलापू संध्यालक्ष्मी, इंजीनियर्स
(66108) दोदुल राय, आर्टी	(01208) सागरिका एम, सिग्नल्स
(66110) अमन सिंह जमवाल, एएडी	
(66111) मनप्रीत सिंह मारवाह, इन्फैन्ट्री	(00847) रश्मि नारायण, इंट
(66115) अरूप मुखर्जी, इंजीनियर्स	(00850) पल्लवी सिंह, एएडी
(66119) सुधीर कालिया, मेक	(00853) प्रियंका सिंह, एएससी
(66120) अभिषेक यादव, एएससी	(00864) मनलीन कौर बाजवा, एओसी
(66121) रथीश कुमार ए, इन्फैन्ट्री	(00866) नम्रता पी पल्लव, एएडी
(66122) अभिनव संधु, इंजीनियर्स	(00867) चौहान राखी रामबीरसिंह, एएससी
(66124) ब्रिज नारायण सिंह, आर्टी	(00872) रंजीताप साहू, ईएमई
(66126) गगनदीप सिंह लाम्बा, एएससी	(00873) एन बिन्दु, एएससी
(66127) अमरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, इन्फैन्ट्री	(00876) जोरामपरी औनम, एएससी
(66129) विकास कुमार, इन्फैन्ट्री	(00877) सुसन राय, इंजीनियर्स

--21 मार्च 2009

--20 अक्टूबर 2006

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)

ले से कप्तान

डब्ल्यू एस सं., नाम, आर्म और कप्तान दिनांक से

(01133) दीप्ती विज, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008

(00881) रुचिका मेहता, इंजीनियर्स  
 (00890) हरकिरण, एएडी  
 (00895) सर्वज्योत कौर, एओसी  
 (00902) विद्या राजन, एएससी

--20 मार्च 2009

डब्ल्यू एस सं.	नाम	आर्म	वरीयता तिथि	कोर्स	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
1	2	3	4	5	6	7
01138	नीलम राठी	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01139	नेहा शुक्ला	एएडी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01141	अंशु जामवाल	एएडी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01144	अनिल खत्री	एएडी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01145	नकिल पल्लवी बजरंग	एएडी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01147	प्रतीक्षा चौहान	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01148	अन्नपूर्णा प्रधान	इंट	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01149	सिंह अंजली मदन	जेएजी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01151	सुलेखा रिनकी	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01154	सुरभि सिंह	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01158	गरिमा	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01162	ज्योत्सना सिंह	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01169	नीमा गोयल	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01174	रितु सिंह	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01175	कोले अमरुता बालासाहेब	एएडी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01181	वेंकट नागलक्ष्मी	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01183	संदीपिका खारा	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01184	बिन्दु अग्निहोत्री	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01186	भिंंगारदेव रेस्मा चंद्रकांत	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01188	शैल्वी सिंह	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01190	प्रियंका मनहास	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01192	रमनदीप कौर मुंदी	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01194	प्रेरणा प्रीति	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01195	ईला	एओसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01203	सस्मिता महापात्रा	एईसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 सितम्बर 06	18 सितम्बर 08
01204	जावेद सविता राजाराम	एएससी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 मार्च 2007	18 मार्च 2009
01207	श्यामली आर्या	एईसी	18 मार्च 2006	डब्ल्यूएसईएसओ-27 (एनटी)	18 सितम्बर 06	18 सितम्बर 08
01136	झिलमिल एम	एओसी	17 सितम्बर 05	डब्ल्यूएसईएसओ-26 (एनटी)	17 सितम्बर 06	17 सितम्बर 08

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी



सं. 394, दिनांक 2 जून 2009

थल सेना विभाग

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार एस जॉथिराज (जेसी-193493एल), 01 जनवरी 2009

सूबेदार प्रकाश चन्द राणा (जेसी-222634ए), 01 जनवरी 2009

सूबेदार एस थिल्लै चिदाम्बरम (जेसी-438200एन), 01 जनवरी 2009

सूबेदार जेसोन थापा (जेसी-204203एल), 01 अप्रैल 2009

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार राधे श्याम (जेसी-841215पी), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार सूरज भान (जेसी-841218एच), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार रुद्र दत्त (जेसी-841222एल), 01 जनवरी 2009

नायब सूबेदार तरलोक सिंह (जेसी-203954ए), 01 फरवरी 2009

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह, एसएम (जेसी-538738के), 01 फरवरी 2009

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार बसालिंगय्या हिरेमठ (जेसी-841708डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एमजीओ)

ईएमई कार्मिक

सं. 395, दिनांक 2 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार (आरमोर) के रैंक में

नायब सूबेदार गायकवाड़ जयवन्त रावन (जेसी-758555वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजा राम (जेसी-760486एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार पी आर (जेसी-760186एल), 24 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008\*

सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-759135एल), 01 अप्रैल 2008

नायब सूबेदार एच सी चौहान (जेसी-759761पी), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार पंजाबी जीत सिंह कुशल चंद (जेसी-760385वाई), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार शिव नारायण शर्मा (जेसी-760296ए), 20 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008\*

नायब सूबेदार बुद्धदेपु जगदीश (जेसी-760175एफ), 17 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008\*

नायब सूबेदार चंद्र शशी पोखरियाल (जेसी-760175वाई), 17 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008\*

नायब सूबेदार शिवजी राम (जेसी-760294पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जेसी-760170ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-760927एक्स), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार जगदीश चंदर शर्मा (जेसी-760299एन), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-760645वाई), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार शिवनाथ सिंह (जेसी-760300एक्स), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार अनिल कुमार सिंह (जेसी-760386एफ), 03 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008\*

सूबेदार आरटीजन (एनई) के रैंक में

नायब सूबेदार शिवाजी सिंह राज पुरोहित (जेसी-759105एन), 01 अक्टूबर 2008

सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार अतर सिंह (जेसी-755727एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार चंद्र पाल (जेसी-755798वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार वृज मोहन (जेसी-755965के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-756062वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुभय कुमार श्रीवास्तव (जेसी-755797डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रशपाल सिंह (जेसी-756063एफ), 06 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008\*

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह यादव (जेसी-756065एम), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार (डीडब्ल्यू) के रैंक में

नायब सूबेदार धरम पाल सिंह (जेसी-760431एच), 02 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008\*

नायब सूबेदार अवदेश सिंह (जेसी-760110एल), 01 अक्टूबर 2008/26 जून 2008\*

नायब सूबेदार बलबोध मिश्रा (जेसी-759745एक्स), 01 मई 2008

नायब सूबेदार रवीन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-760560एच), 06 नवम्बर 2008/01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-760557एच), 01 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार भोला नाथ पाण्डे (जेसी-760716पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार धनपत सिंह (जेसी-760559एम), 06 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008\*

नायब सूबेदार खिर मोहन सरकार (जेसी-760504के), 23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार मोहम्मद इस्माइल (जेसी-760664के), 10 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-760568पी), 05 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार रोनान्की सूर्य नारायण (जेसी-760941के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार राधाकृष्णन नायर एस (जेसी-761143एच), 05 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार राजेन्द्र गिरि (जेसी-760445एच), 04 नवम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार खेम सिंह (जेसी-761022एफ), 08 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

#### सूबेदार रिकवरी मेक के रैंक में

नायब सूबेदार भाला चौधरी (जेसी-753959एक्स), 01 जुलाई 2008

नायब सूबेदार सुभाश चंदर (जेसी-754022वाई), 02 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार होलाम्बे इन्द्रजीत पन्डित (जेसी-754027एक्स), 01 अक्टूबर 2008

#### सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार सम्मु सिंह राठौर (जेसी-756072एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-755733एल), 27 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार सकोकर सुनिल त्रिम्बक (जेसी-756112वाई), 08 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार महेश चंद्र शर्मा (जेसी-756113एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार कृशन नंद राम (जेसी-755724के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह (जेसी-756114के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार हरजीत सिंह (जेसी-756118ए), 01 दिसम्बर 2008

#### सूबेदार टेक के रैंक में

नायब सूबेदार अजय कुमार मेहता (जेसी-758566एल), 06 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

#### सूबेदार टेक ए वी एन के रैंक में

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-758345वाई), 11 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार कृटिबास गरय (जेसी-758346एफ), 01 दिसम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार पंचानन सामल (जेसी-757850पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सिराजुद्दीन (जेसी-757849ए), 12 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

#### सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में

नायब सूबेदार राम कृष्ण पान्डे (जेसी-758217एफ), 30 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार अशोकन एम (जेसी-758277डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार ब्रह्म देव (जेसी-758276एन), 06 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

#### सूबेदार टेक के रैंक में

नायब सूबेदार बाबु लाल (जेसी-758991डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार त्रिलोचन जेना (जेसी-758213एल), 23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार नारायण मजूमदार (जेसी-758263डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2008/01 फरवरी 2008 \*

नायब सूबेदार करुणाकर राणा (जेसी-758023वाई), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-758050एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार शंकर सर्वान्कर (जेसी-758127ए), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रेम सुन्दर शर्मा (जेसी-758038एफ), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार अशोक कुमार सरकार (जेसी-758074एम), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार भवान सिंह राय (जेसी-758208ए), 08 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार नर सिंह (जेसी-758176एच), 01 अक्टूबर 2008 ✓

नायब सूबेदार संजय कुमार सिंह (जेसी-758224एक्स), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार सुधीर कुमार नायक (जेसी-758214एन), 20 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार गजेंद्र सिंह कुशवाह (जेसी-758026एम), 23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-758209एच), 31 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार अनिल कुमार त्रिपाठी (जेसी-758080ए), 12 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार नंद कुमार (जेसी-758219एम), 24 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार चंद्र प्रताप सोनी (जेसी-758262एन), 25 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार हरीश राम (जेसी-758215डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार प्रदीप झा (जेसी-758033एच), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार बिनल पुनिया प्रधान (जेसी-758264वाई), 29 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार लाला राम देशमुख (जेसी-758216वाई), 23 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-758218के), 29 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार रामपाल यादव (जेसी-755952एम), 29 जनवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 \*

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-757983एल), 01 अगस्त 2008

नायब सूबेदार सिव दास ओ के (जेसी-757910वाई), 04 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

नायब सूबेदार राम निवास गोदरा (जेसी-758266के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-758308एल), 06 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-758279एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार के आर्मुगम (जेसी-758272एक्स), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुनेन्द्र सिंह रावत (जेसी-758270एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जेसी-758187पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार हरिकांत मिश्रा (जेसी-758285पी), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-758280डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार अखिलेश्वर सिंह (जेसी-758267एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार भूपेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-758189ए), 02 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार धनन्जय कुमार सिंह (जेसी-758265एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार मगरम कारवाशा (जेसी-758185के), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार डब्ल्यू नरेन्द्र वामन राव (जेसी-758274एच), 03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार गामनी रवी (जेसी-758273ए), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार मनोज कुमार मिश्रा (जेसी-758186एम), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रामकृष्णन के (जेसी-758284एम), 03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-757938वाई), 07 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-758184एफ), 03 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार मंगत राम (जेसी-758181एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार रविदत्त (जेसी-758278वाई), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार टी गजेवियर (जेसी-758282एफ), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-758269एक्स), 17 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार द्वारका प्रसाद रावत (जेसी-758370एक्स), 21 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार विवेकानंद दत्ता (जेसी-758664एल), 07 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

नायब सूबेदार घोलाप्रेम चंद्र बासुदेव (जेसी-758414के), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सीरपू आनंद कुमार (जेसी-758521एल), 01 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-757898एच), 01 जुलाई 2008/01 जून 2008 \*

\*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन अजी मेथू (सं. 6930864ए अब जेसी-728323एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन रोशन लाल (सं. 6931238एच अब जेसी-728324एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन यशपाल सिंह (सं. 6931251एम अब जेसी-728325डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन संजय कुमार (सं. 6931259वाई अब जेसी-728326वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन जी एस सहादेव (सं. 6931325डब्ल्यू अब जेसी-728327एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन डी आर बेर्वाल (सं. 6931344एफ अब जेसी-728328के), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन आर बी एस इंदर सिंह (सं. 6931350पी अब जेसी-728329एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन डी ए राधोजी (सं. 6931358एफ अब जेसी-728330एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन जीवन कुमार (सं. 6931237ए अब जेसी-728331के), 01 जनवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन टी एस नथावत (सं. 6931241एच अब जेसी-728332एम), 25 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन सेथु माधवन पी (सं. 6931566डब्ल्यू अब जेसी-728333पी), 13 फरवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन पी जी शंकर (सं. 6931428पी अब जेसी-728334एक्स), 01 फरवरी 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन टी एल गोविंद (सं. 6931431पी अब जेसी-728335ए), 01 मार्च 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन हरी कुमार बी (सं. 6930845पी अब जेसी-728336एच), 01 मार्च 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन पी आर पांडुरंग (सं. 6931438वाई अब जेसी-728337एल), 01 मार्च 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन देवा कुमार पी (सं. 6929827ए अब जेसी-728338एन), 01 अप्रैल 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन ए तिरुपति राव (सं. 6931206ए अब जेसी-728339डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

हवलदार आम्बुनिशन तकनिशियन एस के सिंहा एम (सं. 6931226एन अब जेसी-728340एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क (जीडी) एस सी पाल (सं. 6922982वाई अब जेसी-728341एन), 08 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आशीश सिंह (सं. 6923187एल अब जेसी-728342डब्ल्यू), 23 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (जीडी) सुरेश कुमार (सं. 6923466डब्ल्यू अब जेसी-728343वाई), 03 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क (जीडी) के बिस्वास (सं. 6923468एफ अब जेसी-728344एफ), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल पी एस बघेल (सं. 6923470वाई अब जेसी-728345के), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर के गोले (सं. 6923471एफ अब जेसी-728346एम), 24 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर वी शाह (सं. 6923474पी अब जेसी-728347पी), 18 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जगदीश प्रसाद (सं. 6923482एन अब जेसी-728348एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रमेश कुमार (सं. 6923486के अब जेसी-728349ए), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल विनोद जी (सं. 6923491पी अब जेसी-728350पी), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जे एस आर पुरोहित (सं. 6923498वाई अब जेसी-728351एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर के सिंह (सं. 6923506एम अब जेसी-728352ए), 01 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सी एस सिंह (सं. 6922972पी अब जेसी-728353एच), 19 मार्च 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल वी प्रधान (सं. 6921394वाई अब जेसी-728354एल), 26 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए एन राय (सं. 6923517वाई अब जेसी-728355एन), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन गोविंद सिंह (सं. 6923554एम अब जेसी-728356डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन के दसारदन (सं. 6923581डब्ल्यू अब जेसी-728357वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क (जीडी) ए बी खालिक गनी (सं. 6923589एच अब जेसी-728358एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीजन प्रकाश सिंह (सं. 6923608एच अब जेसी-728359के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क (जीडी) धरमबीर सिंह (सं. 6923619पी अब जेसी-728360वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क (जीडी) जी ए एस राव (सं. 6923681एफ अब जेसी-728361एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल त्रिलोकी राय (सं. 6923715के अब जेसी-728362के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल किरन चेतिया (सं. 6923721एक्स अब जेसी-728363एम), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल किशोरी लाल (सं. 6923723एच अब जेसी-728364पी), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल अतुल गोगोई (सं. 6923724एल अब जेसी-728365एक्स), 01 अप्रैल 2009

हवलदार क्लर्क (जीडी) राम दरश (सं. 6923726डब्ल्यू अब जेसी-728366ए), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी अरुन कुमार राय (सं. 6923240एल अब जेसी-728367एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एस के करन (सं. 6923267एच अब जेसी-728368एल), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी डी एन पलेइ (सं. 6923270एच अब जेसी-728369एन), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी सी एम सेठी (सं. 6923286एन अब जेसी-728370एच), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल पी सी नाहक (सं. 6923293के अब जेसी-728371एल), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी एस एन कार (सं. 6923295पी अब जेसी-728372एन), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एस के सामंता (सं. 6923329एक्स अब जेसी-728373डब्ल्यू), 26 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी सिग्नल जयंताकर (सं. 6923334एच अब जेसी-728374वाई), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल यू के बिस्वास (सं. 6923335एल अब जेसी-728375एफ), 08 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी सिग्नल के एस शंकर (सं. 6923357के अब जेसी-728376के), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एस राय (सं. 6923362पी अब जेसी-728377एम), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एच के साहू (सं. 6923368डब्ल्यू अब जेसी-728378पी), 26 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी आम्बुनिशन मधु जी (सं. 6923371डब्ल्यू अब जेसी-728379एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी जगदीश सिंह (सं. 6923437एफ अब जेसी-728380एम), 27 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी अशोक कुमार (सं. 6923450एल अब जेसी-728381पी), 27 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी आर एस शिशोदिआ (सं. 6923451एन अब जेसी-728382एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी राजेंद्र सिंह (सं. 6923452डब्ल्यू अब जेसी-728383ए), 09 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी मोहिंदर सिंह (सं. 6923457पी अब जेसी-728384एच), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी के पी आर चंद्रा (सं. 6923467वाई अब जेसी-728385एल), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी विनोद कुमार (सं. 6923508एक्स अब जेसी-728386एन), 01 मार्च 2009

हवलदार एसकेटी वेपन ए देवेंद्रुडू (सं. 6923519के अब जेसी-728387डब्ल्यू), 28 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी टी एस यादव (सं. 6923529एन अब जेसी-728388वाई), 23 मार्च 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी वेपन मोहन सिंह (सं. 6923550डब्ल्यू अब जेसी-728389एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी वेपन भंवर लाल (सं. 6923551वाई अब जेसी-728390डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी वेपन राजेंद्र सिंह (सं. 6923553के अब जेसी-728391वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी वेपन एम आर बिश्नोई (सं. 6923557ए अब जेसी-728392एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी जी सिंह (सं. 6923559एल अब जेसी-728393के), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी पी एस देओरा (सं. 6923561एच अब जेसी-728394एम), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी रामलाल नागर (सं. 6923562एल अब जेसी-728395पी), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटीजीएस एंड सी टी आर पुनिआ (सं. 6923564डब्ल्यू अब जेसी-728396एक्स), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी मंगल सिंह (सं. 6923566एम अब जेसी-728397ए), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी डी सी डीमरी (सं. 6923571एम अब जेसी-728398एच), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी एस एस रा (सं. 6923572पी अब जेसी-728399एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी एस जे अहमद (सं. 6923573एक्स अब जेसी-728400पी), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी आर के एस सिशोदिआ (सं. 6923583एफ अब जेसी-728401एक्स), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी करन सिंह (सं. 6923584के अब जेसी-728402ए), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी ओम प्रकाश (सं. 6923585एम अब जेसी-728403एच), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी एच एल यादव (सं. 6923592एच अब जेसी-728404एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी देवेंद्र कुमार (सं. 6923604एम अब जेसी-728405एन), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी एम टी शहान खान (सं. 6923610ए अब जेसी-728406डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी संतोख सिंह (सं. 6923621एम अब जेसी-728407वाई), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल्स के मूर्ति (सं. 6919430ए अब जेसी-728408एफ), 05 अप्रैल 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एम टी एम एस अंसारी (सं. 6920300के अब जेसी-728409के), 01 फरवरी 2009

हवलदार ड्राइवर एम टी सुभाश (सं. 6920812डब्ल्यू अब जेसी-728410वाई), 01 फरवरी 2009

हवलदार ड्राइवर स्पेशल सी एस मलिक (सं. 6921412डब्ल्यू अब जेसी-728411एफ), 01 मार्च 2009

हवलदार ड्राइवर एम टी एस मुरगोसन (सं. 6921637वाई अब जेसी-728412के), 30 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी सी पांडी (सं. 6922482एफ अब जेसी-728413एम), 01 मार्च 2009

हवलदार ड्राइवर एमटी आर सी दूत (सं. 6922665एक्स अब जेसी-728414पी), 01 मार्च 2009

हवलदार ड्राइवर एमटी ओम प्रकाश (सं. 6922684एच अब जेसी-728415एक्स), 01 मार्च 2009

हवलदार ड्राइवर एमटी अशोक कुमार (सं. 6922742एफ अब जेसी-728416ए), 01 मार्च 2009

हवलदार ड्राइवर एमटी उमेद सिंह (सं. 6922819वाई अब जेसी-728417एच), 01 मार्च 2009

हवलदार एसएचटी रमेश चंद (सं. 6921208एक्स अब जेसी-728418एल), 01 अप्रैल 2009

हवलदार एसएचजीडी डी पांडेय (सं. 6922328एच अब जेसी-728419एन), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एसएचजीडी एस बी आर के गुट्टे (सं. 6922585ए अब जेसी-728420एच), 01 फरवरी 2009

हवलदार एसएचजीडी कनक चंद्र बारो (सं. 6922588एन अब जेसी-728421एल), 01 फरवरी 2009

हवलदार एसएचजीडी सुदेवन आर (सं. 6921722एफ अब जेसी-728422एन), 01 फरवरी 2009

हवलदार एसएचजीडी एम मुनीराज (सं. 6922610एन अब जेसी-728423डब्ल्यू), 01 मार्च 2009

हवलदार एसएचजीडी विजय पाल (सं. 6922613एफ अब जेसी-728424वाई), 01 मार्च 2009

हवलदार एसएचजीडी गोरख गिरी (सं. 6922657वाई अब जेसी-728425एफ), 01 अप्रैल 2009

हवलदार कार्पेंटर यूनिट विक्रम सिंह (सं. 6920013ए अब जेसी-728426के), 08 मार्च 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

एन के कश्मीरा  
उप सचिव

#### वायु शाखा

सं. 396, दिनांक 2 जून 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:—

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में:—

बी डी गलगली (15272), वै ई(वै), 19 मई 2008

सी एस सोहनी (15472), वै ई(यां), 02 जून 2008

##### शिक्षा शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में:—

एस बी मुतालिक (16275), शिक्षा, 19 फरवरी 2007

##### उड़ान शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में:—

बी एस धनोया (15405), उ(पा), 24 नवम्बर 2008/01 सितम्बर 2007 (केवल वरीयता के आधार पर)

(इनका नाम एयर कामोडोर ए एस भोंसले (15327), उ(वै), के ऊपर आयेगा)।

आर मारवाह (15865), उ(पा), 07 जुलाई 2008

(इनका नाम एयर कामोडोर एन के टण्डन (16030), उ(पा), के ऊपर आयेगा)।

ए के सिन्हा (16074), उ(पा), 03 अक्टूबर 2008/15 सितम्बर 2008

(केवल वरीयता के आधार पर)

(इन का नाम एयर कामोडोर ए लाल (16031), उ(पा), के नीचे आयेगा)।

ए वर्मा (15410), उ(पा), 15 सितम्बर 2008

यू सिंह (16204), उ(पा), 12 नवम्बर 2008

(इन दोनों का नाम एयर कामोडोर डी एस रावत (16242), उ(पा), के नीचे आयेगा)।

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में:--

एम एस जे पाई (17630), वै. ई.(वै.), 16 मार्च 2008

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन ए शर्मा (17640), वै. ई.(वै.), के नीचे आयेगा)।

एम जी सेठी (17664), वै. ई.(वै.), 19 मई 2008

टी जी देसाई (17665), वै. ई.(वै.), 01 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008(नो.सी.)

के विजय कुमार (17648), वै. ई.(यां.), 20 अक्टूबर 2008

बी एम कान्नूर (18201), वै. ई.(यां.), 01 नवम्बर 2008

पी के चौधरी (17828), वै. ई.(यां.), 01 नवम्बर 2008

वी पांडे (17647), वै. ई.(यां.), 13 अक्टूबर 2008/01 दिसम्बर 2007 (नो. से.)

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन पी मुखर्जी (17671) वै.ई. (वै) के ऊपर आयेगा)।

आर बी भाडंग (17669), वै. ई.(वै.), 02 जून 2008

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन टी जी देसाई (17665) वै.ई. (वै) के ऊपर आयेगा)।

एन आर चिटनिस (17826), वै. ई.(यां.), 01 दिसम्बर 2008

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन पी के चौधरी (17828) वै.ई. (यां) के नीचे आयेगा)।

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक अधिकारी 2बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 397, दिनांक 2 जून 2009:--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

श्री अम्बिका प्रसाद घोष, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1, के रूप में आई टी आर, बालासोर में 01 जनवरी 2009 से पे बैंड रु. 15,600--39,100 एवं ग्रेड पे रु. 6,600 पर।

टी अब्दुल्लाज्जक

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 398, दिनांक 3 जून 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में दिनांक 01 सितम्बर 2008 (पूर्वाह) से पदोन्नति करते हैं:--

नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान (संशोधन पूर्व)
1	2	3	4	5
श्री के ए अब्दुलसलाम	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एम के मैथ्युस	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एन के रामाचन्द्रन नायर	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री वो आर सिवदास	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती टैसी जोसफ	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री सुनील पी डी	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एन बी अशोकन (अ सूचित जाति)	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री जैकब अब्राहम	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-

1	2	3	4	5
श्री एम आर रामाचन्द्रन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती पी जे मारिया सपरानसिया	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री के मनोहरन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री आर कृष्णन (अ. सूचित जाति)	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री वी पी गोपालकृष्णन नायर	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री एस मधुसूदनन	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्रीमती टी हेमलता	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री गोविन्द राजू	एडीई	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री बी सीथारमण	एडीई	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री टी श्रीधर	एडीई	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री वाई सी शंकरप्पा (अ. जाति)	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती अनीता मूर्ति	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एस श्रीधर रेड्डी	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री रवि रे एस के	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री बी वी सुन्दा मूर्ति	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री आर वाराप्रसाद राव	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एल शामेया	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री विनसैन्ट जैवियर	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री सी जैम्स	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री वी मुरुगेसन (अ. जाति)	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री आर जगन्नाथन	एडीई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री मो. अमनुल्ला खान	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री के आर समपथ कुमार	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री सी सुब्बाइया (अ. जाति)	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री टी जानकी राम	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती पदमा श्रीधर	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री ए बालामुरुगन (अ. जाति)	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री ए जयचन्द्र (अ. जाति)	एडीई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री बी वेंकटरमणी	एडीई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री एम श्रीधरन (अ. जाति)	एडीई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री एच एस मन्जूनाथ राव	एडीई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री पी जयचन्द्र रेड्डी	एडीई	तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री के एम शिवदास	एडीई	तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री एम डी गणेशचर	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-



1	2	3	4	5
श्रीमती ए के उमा शंकरा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एस विश्वेश्वरन (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री के सी हेमन्ता (अ. ज. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री वी आनन्द (अ. ज. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री आर. कन्नन (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री ए आर रवि (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री यू पी वर्मा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री डी एन रविन्द्र	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री के राघवेन्द्र	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री डी के पुष्पा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री अनिल कुमार यादव	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री टी पी मन्नु (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एन एम कवेरप्पा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती के एम मारुमलारवि (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री एच एम अब्दुल सत्तार	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री एस आनन्दप्पा (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री आर मुनिरेड्डी	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री पी सासी कुमार (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री ई एस उमा शंकर (अ. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती पी के ए गीथा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती जे चित्रा	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री तीळ निरदोश कुमार (अ. ज. जाति)	जीटीआरई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री एम एच शिवानन्देया	जीटीआरई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री सी नारायननकुट्टी	जीटीआरई	तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री वी आर मुरलीधरन नायर	जीटीआरई	तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री एल मल्लेश्वरी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्रीमती वाई उत्रा कुमारी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री जी रंगा राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्रीमती वाई अनसूर्या	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री जे अशोक (अ. जाति)	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती वी अनुराधा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती सी नलिनी ज्योति	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती पी जयकुमारी (अ. जाति)	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-

1	2	3	4	5
श्री के श्रीधर राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री जी एच बाबू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री के भारती	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री डी प्रभाकर	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एम दत्तात्रिया	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती एस विध्या रानी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री बी अंजनेयुलु	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती सी हेमलता	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री ए रामा मोहन	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री जी शंकर (शारीरिक विकलांग)	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एम मुरली कृष्णा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री टी भीमराज सिंह	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती एन प्रमिला रानी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती एम सावित्री	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री ए एस अप्पा राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री बी कनैया (अ. जाति)	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री वाई वी जगदेश्वर	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती वाई सीता महालक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्रीमती वी शोभा रानी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्रीमती टी कुसुमा कुमारी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री डी वी सत्यम	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री के जीवन रेड्डी	डीएलआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री पी श्रीनिवास राव	डीएलआरएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री के प्रकाश	डीएलआरएल	तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री डी हनुमन्ता राव	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-सी	तकनीकी अधिकारी-डी	रु. 12,000-375-16,500/-
श्री आर जयसिंह (अ.ज. जाति)	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री आर एम साई राम	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री टी सूर्यानारायन	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री एस नागेश्वर राव	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-बी	तकनीकी अधिकारी-सी	रु. 10,000-325-15,200/-
श्री सी दुर्गा प्रसाद	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री के गंगाधर तिलक	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री वी वी सुब्रह्मण्ययण	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री एस एस बाशा	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी-ए	तकनीकी अधिकारी-बी	रु. 8,000-275-13,500/-
श्री एस मधुसूधन	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री ए के चारी	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-
श्री मुथु अज्ञागन (अ. जाति)	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी	तकनीकी अधिकारी-ए	रु. 7,450-225-11,500/-

बी बी शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

## सेना विभाग

सं. 399, दिनांक 3 जून 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित महिला विशेष प्रवेश योजना अधिकारियों को थल सेना अनुदेश 11/एस/64, के अंतर्गत उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से सेवा मुक्त किया जाता है। अधिकारियों को नियमित आरक्षण (श्रेणी एस) में उनकी नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनकी आयु 37 वर्ष होने तक, दोनों में से जो भी पूर्व हो सम्मिलित कर लिया जाए:--

## नियमित सेना

## अल्प सेवा आयोग

डब्ल्यूएस सं., नाम, आर्म/सर्विस तथा सेवा मुक्ति की तिथि

- (डब्ल्यूएस-00263वाई) रिचा रावत, इंजीनियर्स, 06 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00268एक्स) बबिता कनौजिया, आईसी, 06 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00286ए) सोनिका श्रीवास्तवा, एएससी, 06 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00290एच) शीलू वरघीस, इंजीनियर्स, 06 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00437एन) जया मेरी जमेस, एओसी, 31 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00607एम) मीतु सांघ, एओसी, 31 जनवरी 2008  
 (डब्ल्यूएस-00653एफ) आर गोमती, सिग्नल्स, 27 जनवरी 2008  
 (डब्ल्यूएस-00670एफ) पूनीत कल्याण, एओसी, 10 जुलाई 2008  
 (डब्ल्यूएस-00739ए) पारुल लिंगवाल, सिग्नल्स, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00744एल) बिंदु शर्मा, सिग्नल्स, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00747वाई) पूनम सार्वत, सिग्नल्स, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00749के) आश्विनी जे, एओसी, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00755एक्स) बबीता लक्ष्मन, एओसी, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00759एन) आरती, ईएमई, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00760एच) एक्स मरसीलीन, एओसी, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00762एन) गुप्ता दीप शिखा हर स्वरूप, इंजीनियर्स, 07 मार्च 2008  
 (डब्ल्यूएस-00763डब्ल्यू) स्वाति सकपाल, ईएमई, 07 मार्च 2008

(डब्ल्यूएस-00764वाई) जीजी यूके, ईएमई, 07 मार्च 2008

(डब्ल्यूएस-00779एफ) विद्या कुमारी, सिग्नल्स, 30 जुलाई 2008

(डब्ल्यूएस-00804पी) कनु पठनिया, जग, 05 सितम्बर 2008

(डब्ल्यूएस-00806ए) अश्विनी एन के, एएससी, 05 सितम्बर 2008

(डब्ल्यूएस-00817एम) नितिज्ञा ठाकुर, इंटर, 03 अक्टूबर 2008

(डब्ल्यूएस-00818पी) शेरिन राज ए, एओसी, 05 सितम्बर 2008

(डब्ल्यूएस-00826एन) नेहा चतुर्वेदी, एएससी, 05 सितम्बर 2008

(डब्ल्यूएस-00829) निधि कश्यप, इंटर, 05 सितम्बर 2008

(डब्ल्यूएस-00831वाई) सुमिशा शंकर एस, एओसी, 05 सितम्बर 2008

वी एस रानडे  
कर्नल

## शुद्धिपत्र

सं. 400, दिनांक 3 जून 2009:--

## भारतीय वायु सेना

## वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में:--

दिनांक 16 जून 2007 के भारत का राजपत्र में जी डी जी एन छपा है उसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाए:--

क्रम वायु अधिकारी का विवरण  
संख्या

8. एयर कामोडोर (एक्विंग) जे चन्द्रा (14613) वै. ई.(वै.)

के लिए : दिनांक 02 जनवरी 2006

पढ़ें : दिनांक 02 जनवरी 2007

ए के सिंह  
उप निदेशक कार्मिक (अधिकारी-2बी)

## MINISTRY OF DEFENCE

## (PERSONAL STAFF)

New Delhi, the 18th July 2009  
Appointment of Honorary Surgeons

No. 381, dated 28th May 2009—The President is pleased to make the following appointment in her honorary personal staff with effect from 01 Jan 2009 :—

Specialist Medical Officer

Lt Gen OP Mathew, AVSM, SM (MR-02838F), Comdt  
Army Hospital (R&R), New Delhi

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS(HR)

## ARMY BRANCH

No. 382, dated 28th May 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
To be Lts wef 13 Dec 2008

The undermentioned Gentlemen Cadets of 10+2 TES 12 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 13 Dec 2008 under the provision of AI 3/99.

Name, IC No. & Arm/Service

Dablu Mishra (71111F), EME

Radheshyam Yadav (71112K), EME

Surender Singh Bisht (71113M), Engrs

Deo Ameya Gajanan (71114P), Sigs

Mallinatha (71115X), Sigs

Tribhuvan Bisht (71116A), EME

Gaurav Pant (71117H), Engrs

Shebin B Kutty (71118L), EME

Sareth VR (71119N), EME

Priyesh Srivastava (71120H), Engrs

Ravinder Bhakher (71121L), Engrs

Chandan Vishwakarma (71122N), Engrs

Madhur Malik (71123W), Sigs

Sandeep Kumar (71124Y), EME

Ashish Dhankar (71125F), Sigs

Virendra Keshari (71126K), Sigs

Kuldeep Singh (71127M), Engrs

Neelkant Kumar (71128P), Sigs

Daksh Deep Vishnoi (71129X), Engrs

M Surendra Kumar (71130M), EME

Gaurav Raj (71131P), Sigs

Arshdeep Singh Gill (71132X), Sigs

Vivek Negi (71133A), EME

Deepanshu Baloonie (71134H), Engrs

Vishal Marmgain (71135L), Sigs

Rijesh Jayarajan (71136N), AAD

S Kochelvan (71137W), EME

Himanshu Rawat (71138Y), EME

Varun Sharma (71139F), Sigs

Anand B (71140W), EME

Rahul Hermon (71141Y), Sigs

Viraaj Gulati (71142F), EME

Jugal Sharma (71143K), Engrs

Lakshay Jain (71144M), Inf

Anirudha Ramesh Kumar Sunkara (71145P), Inf

Abhishek Ranade (71147A), ASC

Sriraam S V (71148H), Sigs

Rajat Bahl (71149L), Engrs

Ashish Shah (71150A), EME

Gagandeep Mishra (71151H), Engrs

Laksh Sharma (71152L), Sigs

Mohit Kumar Sharma (71153N), Sigs

Suyash Raghuvanshi (71154W), EME

Anurag Kumar (71155Y), EME

Ronald Daniel D'Souza (71156F), Engrs

Namram Ashokumar Meitei (71157K), Engrs

Ankur Gupta (71158M), EME

M Krishna Chaitanya (71159P), EME

Manish Nair (71160K), Engrs

Sankalp Soni (71161M), Sigs

Prashant Nema (71162P), Sigs

Deepak Jain (71163X), Sigs

PA Appacha (71164A), Sigs

Abhineet Kumar (71165H), Sigs

Shobhit Mehta (71166L), Sigs

Himanshu Singh (71167N), Sigs

Abhishek Biswas (71168W), EME

Sushil Kumar (71169Y), Sigs  
 Singam Jeevan Singh (71170N), Engrs  
 Vikram Jit Singh Dahiya (71171W), EME  
 Ankit Budhraj (71172Y), Sigs  
 Arunbhasakar K (71173F), EME  
 R Vamshi Krishnan (71174K), Engrs  
 Kshetrimayum Changkhomba (71175M), Engrs  
 O Jotin Kumar (71176P), Arty  
 Viprav Bhattacharya (71177X), EME  
 Deepak Singh (71178A), Engrs  
 Deepanjan Bandyopadhyay (71179H), EME  
 Patil Gururaj Pralhad (71180X), Engrs  
 Vivek Subramanian (71181A), EME  
 Kale Vikrant Khanderao (71182H), Arty  
 Satyen Kumar (71183L), EME

NILESH CHOWDHARY  
 Lt Col  
 AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 383, dated 28th May 2009—The President is pleased to make the following appointments:—

#### REGULAR ARMY (SPECIAL COMMISSION)

The following 22 GCs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their names in the rank of Lt under AI 5/97 with effect from 13 Dec 08 as per inter-seniority given in the final letter of even number dated 31 Dec 08.

IMA No., Army No., Parent Arm/Service, Name, SCO No. & Arm Service Allotted

S/668, 9512773H, AEC, Rajesh Kumar Singh Chauhan (SC-00564H), Inf  
 S/666, 3995618A, Inf, Ashwani Kumar (SC-00565L), Inf  
 S/656, 15380630W, Sigs, Koppula Satyanarayana (SC-00566N), AAD  
 S/659, 7778907N, CMP, Pradeep M (SC-00567W), Engrs  
 S/674, 4081407M, Inf, Roop Singh Negi (SC-00568Y), Inf  
 S/640, 1464388IL, EME, Rajiv Ranjan (SC-00569F), EME  
 S/655, 14826600X, ASC, Sreejesh S (SC-00570W), Arty  
 S/675, 15463904P, AC, Vinod Kadian (SC-00571Y), AC  
 S/651, JC-376989N, Sigs, Ashram Prasad Sharma (SC-00572F), Sigs

S/660, 9512660A, AEC, Anand G Panicker (SC-00573K), Engrs  
 S/667, 4079101L, Inf (Para), Mohan Chandra (SC-00574M), Inf  
 S/662, 9512638P, AEC, Harpreet Singh (SC-00575P), Arty  
 S/652, 2487455K, Inf, Ravinder Singh Tanwar (SC-00576X), Engrs  
 S/658, 14409137X, Arty, Amar Nath (SC-00577A), Arty  
 S/669, 14649977K, EME, Madhu A T (SC-00578H), EME  
 S/654, 14627897M, EME, Jadeja Bhagirath Singh (SC-00579L), EME  
 S/657, 6395707K, ASC, Raj Kishore Kanwasi (SC-00580A), Arty  
 S/670, 9512802M, AEC, Somendra Kumar Sharma (SC-00581H), Inf  
 S/649, 9512788L, AEC, Sourav Chakraborty (SC-00582L), Inf  
 S/653, 15769912H, AAD, Durlav Kumar Medhi (SC-00583N), Arty  
 S/664, 6940089F, AOC, Moorkkanattil Anthony Joy (SC-00584W), Inf  
 S/663, 15464099H, AC, Raj Kumar Sharma (SC-00585Y), Mech

RAHUL SHARMA  
 Lt Col  
 AMS-8B

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS BRANCH

No. 384, dated 28th May 2009—The President is pleased to make the following appointments:—

#### REGULAR ARMY SPECIAL LIST

To be Nb Sub (Religious Teachers)

Ashok Kumar Mishra (JC-762906A), 15 Nov 2008  
 Brajesh Kumar Tripathi (JC-762908L), 15 Nov 2008  
 Sheshmani Tiwari (JC-762909N), 15 Nov 2008  
 Manoj Kothari (JC-762910H), 15 Nov 2008  
 Kuldeep Sanothiya (JC-762911L), 15 Nov 2008  
 Akhtar Ali (JC-762912N), 15 Nov 2008  
 Jagnniwas Shukla (JC-762913W), 15 Nov 2008  
 Suryanarayan Pandey (JC-762914Y), 15 Nov 2008

N K KASHMIRA  
 Under Secy

**DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION**

No. 385, dated 29th May 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the dates shown against their names in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) :—

Pin No., Name, Estt./Lab & Date of Joining

2008AB1010 Shri Sankalp Sharma, ADE, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1524 Shri Shivanand Tripathi, ASL, Hyderabad, 10 Sep 2008

2008AB1076 Shri Subbarao Nuvvula, ASL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1095 Shri Shadab Ahmad Khan, ASL, Hyderabad, 21 May 2008

2005AB1615 Shri J Senthil Kumar, ASL, Hyderabad, 14 Apr 2005

2007AB1048 Shri Gajanan Onkarrao Watkar, CAIR, Bangalore, 23 May 2007

2008AB1207 Shri Pravin Kumar, DARE, Bangalore, 21 May 2008

2006AB1052 Shri Virendra Kumar Jaiswal, DARE, Bangalore, 27 Apr 2006

2008AB1242 Shri Anranya Yadav, DEAL, Dehradun, 21 May 2008

2008AB1247 Shri Alok Kumar Maurya, DEAL, Dehradun, 21 May 2008

2008AB1255 Shri V Mallikarjuna Reddy M, DEBEL, Bangalore, 21 May 2008

2006AB1069 Ms P Neeraja, DRDL, Hyderabad, 27 Apr 2006

2008AB1034 Shri Dinesh Tilante, GTRE, Gwalior, 21 May 2008

2007AB1246 Shri Satav Jayant Uttam, HEMRL, Pune, 23 May 2007

2008AB1127 Shri Pranav Kumar, ISSA, Delhi, 21 May 2008

2007AB1266 Shri Rockey Kumar, IRDE, Dehradun, 23 May 2007

2008AB1129 Shri Ajay Kumar, ITR, Balasore, 21 May 2008

2008AB1514 Shri Vidya Shankar Pandey, LASTEC, Delhi, 12 Sep 2008

2008AB1462 Shri Elayaperumal S, LRDE Bangalore, 25 Jun 2008

2008AB1225 Shri Abhay Kumar Sori, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008

2008AB1285 Shri Naveen Kumar Vodde, RCI, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1277 Shri Chander Shekhar, RCI, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1239 Shri Ashutosh Abishek, R&DE(E), Pune, 21 May 2008

2007AB1215 Shri Hoshiyar Singh Yadav, R&DE(E), Pune, 28 May 2007

2008AB1352 Shri Kapil Virmani, SPIC, Delhi, 21 May 2008

2008AB1382 Shri Mahesh Kumar, TBRL, Chandigarh, 21 May 2008

2008AB1389 Shri Devinder Kumar, TBRL, Chandigarh, 21 May 2008

2005AB1713 Shri Rajeev Kumar, TBRL, Chandigarh, 03 Jun 2005

2007AB1143 Shri Akhilendra Krishna, WESEE, Delhi, 23 May 2007

TABDURRASSAK  
Jt Dir (Pers)

No. 386, dated 29th May 2009—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS Officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Colonel to Brigadier

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Brig A M Kamalam (NR-15381K), 01 Jan 2009

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Col T Zacharias (NR-16417K), 01 Feb 2009

Col B V Mariam (NR-16313H), 25 Jan 2008

Col Arun Bala (NR-16006L), 01 Jan 2009

Col P Krishna Veni (NR-15986L), 01 Jan 2007

TPADMINI  
Maj Gen  
Addl DGMNS

## ARMY BRANCH

No. 387, dated 29th May 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

## (ARMY MEDICAL CORPS)

Col (TS) to be Col (Selection) & (Equivalent)

MK Garg (MR-05590N), 01 Nov 2007

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

No. 388, dated 29th May 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

Lt Col SS Rautela (IC-35151X), Inf, 16 Dec 2004

Lt Col Amarek Singh (IC-37883M), Inf, 27 Apr 2008

Lt Col SK Chaudhary (IC-40181Y), Arty, 19 Dec 2007

Lt Col Nitin Chopra (IC-40252P), Arty, 19 Dec 2007

Lt Col CB Bhaskar (IC-40883X), Inf, 24 Dec 2008

Lt Col NK Sharma (IC-40973Y), Mech Inf, 24 Dec 2008

Lt Col Rajan Kadyan (IC-41020H), ASC, 24 Dec 2008

Lt Col PS Virdi (IC-41033A), EME, 24 Dec 2008

Lt Col S Chhikara (IC-41036N), ASC, 24 Dec 2008

Lt Col TK Sashidharan (IC-42253W), Engrs, 13 Jun 2008

Lt Col R Mathur (IC-42705N), Engrs, 25 Dec 2008

Lt Col PA Bhikaji (IC-42715X), Engrs, 25 Dec 2008

Lt Col Rajendra Pandey (IC-42741Y), Sigs, 25 Dec 2008

Lt Col DS Sandhu (IC-37818M), Arty, 12 Nov 2007

Lt Col Rajeshwar Singh (IC-37915K), AOC, 27 Apr 2008

Lt Col Davinder Singh (IC-37974W), AC, 11 Nov 2008

Lt Col Suresh Rana (IC-38369P), AOC, 22 Dec 2005

Lt Col Bharat Singh (IC-38715A), AAD, 07 Jun 2006

Lt Col RM Bhatnagar (IC-38916Y), Inf, 07 Jun 2006

Lt Col Ashish Mehta (IC-38929W), Inf, 07 Jun 2006

Lt Col SKD Patnaik (IC-40698K), Inf, 24 Dec 2008

Lt Col MK Sharma (IC-40767P), Mech Inf, 24 Dec 2008

Lt Col SC Pandey (IC-40931M), Arty, 24 Dec 2008

Lt Col PP Roy (IC-27315N), Engrs, 16 Dec 2004

AJAY GOEL

Dy Dir

MS 8A

No. 389, dated 29th May 2009—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS Officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Lt Col Louise Dahal (NR-16354M), 17 Sep 2003

Lt Col P Krishnaveni (NR-15986L), 10 Apr 2001

T PADMINI

Maj Gen

Addl DGMNS

No. 390, dated 1st June 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

Name (WS No.), Arms & Effective Date

Monica Mishra (WS-00149), Engrs, 09 Sep 2007

Sonia Anand (WS-00165), EME, 09 Sep 2007

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS 8C

No. 391, dated 1st June 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Majors to be Substantive Lt Col (Time Scale)

Maj D Tripathi (IC-40261W), Arty, 19 Dec 2001

AJAY GOEL

Dy Dir

MS 8A

No. 392, dated 1st June 2009—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Sqn Ldr to be Wg Cdr

M Dahiya (MR-06741N) (23416), AMC, 04 Jan 2007

Deepti Mutreja Tilak (MR-06946H) (23495), AMC, 06 Jan 2009

TVSVGK Tilak (MR-06947L) (24458), AMC, 06 Jan 2009

P Renjhen (MR-06849L) (AF-23472), AMC, 08 Jan 2008

Samaresh Sahu (MR-06949W) (AF-24459), AMC, 06 Jan 2009

Himanshu Swami (MR-06967Y) (AF-24460A), AMC, 06 Jan 2009

Flt Lt to be Sqn Ldr

Shailesh (MR-07796K) (AF-26916), AMC, 02 Aug 2007

Surjeet Kumar Dwivedi (MR-08050A) (27646), AMC, 30 Dec 2008

YASH PANDE  
Brig  
Dy DGAFMS (HR)

No. 393, dated 1st June 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

Name (IC No.) & Arm

Puneet Bedi (IC-66044), Arty

Surender Singh (IC-66045), AC

Anil Kumar Sharma (IC-66046), AAD

M Shyam (IC-66049), Inf

Siddharth Nehra (IC-66050), ASC

Lakhpatri Singh (IC-66051), Inf

Fateh Singh (IC-66053), Sigs

GRS Raja (IC-66054), Inf

Limboo Paras (IC-66056), Inf

Vikrant Prasher (IC-66057), Arty

Nitin Rawat (IC-66059), Arty

Vijay Singh Bhadauria (IC-66061), Inf

Gaurav Nyol (IC-66063), AC

Sharad Tyagi (IC-66064), AOC

Sandeep Singh Chawla (IC-66065), Arty

Katharia Manishkumar Gagansingh (IC-66066), Inf

Rajkumar Johnson Singh (IC-66067), AAD

Anubhav Kanchan (IC-66069), Arty

Tushar Chowdhary (IC-66070), ASC

Mohd Aslam Khan (IC-66072), AC

Pradeep Kumar Sharma (IC-66073), Arty

Arvind Rana (IC-66074), ASC

Subrat Mishra (IC-66075), Mech

D Sreeramkumar (IC-66076), Arty

K Rakesh Singh (IC-66079), ASC

Viplove (IC-66080), Inf

Gokhale Amarendra Anant (IC-66082), Inf

Maresh K N (IC-66084), Sigs

K R Baby Krishnan (IC-66085), Inf

U Sachin (IC-66087), AC

Anuj Sharma (IC-66088), Inf

Amit Kumar (IC-66090), Inf

Himanshu Joshi (IC-66092), Engrs

Raghawendra (IC-66093), ASC

Mayank Malaviya (IC-66094), AAD

Priyatosh Anil Mangrulkar (IC-66095), EME

Ashok Kumar Puri (IC-66096), Arty

Manish Chauhan (IC-66102), Arty

Chinkhothang Tonsing (IC-66103), Inf

Gurmeet Raturi (IC-66104), Int

Manish Kulhari (IC-66105), Inf

Arnit Prasad (IC-66106), Arty

Bhagirath Singh Jodha (IC-66107), Inf

Dodul Roy (IC-66108), Arty

Aman Singh Jamwal (IC-66110), AAD

Manpreet Singh Marwah (IC-66111), Inf

Arup Mukherjee (IC-66115), Engrs

Sudhir Kalia (IC-66119), Mech

Abhishek Yadav (IC-66120), ASC

Ratheesh Kumar A (IC-66121), Inf

Abhinav Sandhu (IC-66122), Engrs

Brij Narayan Singh (IC-66124), Arty



Gagandeep Singh Lamba (IC-66126), ASC  
 Amrendra Prasad Dwivedi (IC-66127), Inf  
 Vikas Kumar (IC-66129), Inf

—20 Oct 2006

#### SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No., Name and Arm/Service

01133 Deepti Vij, Engrs

—17 Sep 2008

01142 Gayatri Hooda, Engrs

01150 Anuja Hanmant Varudkar, Engrs

01153 Poonam Boora, Engrs

01159 Pragya Singhvi, Sigs

01160 Gouri Tiwari, Engrs

01172 Pillai Divya Gopinathan, Engrs

01177 Priyanka Sindwani, EME

01180 Sashmita Behera, EME

01182 Neetu, Engrs

01191 Bhagat Radhika Chandrakant, Sigs

01202 Asha Roshini MS, Sigs

01205 Tanu Malik, AOC

01206 Ulapu Sandhyalakshmi, Engrs

01208 Sagarika M, Sigs

—21 Mar 2009

00847 Rashmi Narayan, Int

00850 Pallavi Singh, AAD

00853 Priyanka Singh, ASC

00864 Manleen Kaur Bajwa, AOC

00866 Namrata P Pallav, AAD

00867 Chauhan Rakhi Rambirsingh, ASC

00872 Ranjeeta Sahu, EME

00873 N Bindu, ASC

00876 Zorampari Oinam, ASC

00877 Susan Roy, Engrs

00881 Ruchika Mehta, Engrs

00890 Harkiran, AAD

00895 Sarvjyot Kaur, AOC

00902 Vidya Rajan, ASC

—20 Mar 2009

WS No., Name, Arm, Seniority, Course, Revised Date of Seniority and Date of Promotion for Substantive Capt

01138 Neelam Rathee, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01139 Neha Shukla, AAD, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01141 Anshu Jamwal, AAD, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01144 Anila Khatri, AAD, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01145 Nakil Pallavi Bajarang, AAD, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01147 Pratikasha Chauhan, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01148 Annapurna Pradhan, Int, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01149 Singh Anjali Madan, Jag, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01151 Sulekha Rinki, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01154 Surabhi Singh, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01158 Garima, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01162 Jyotsna Singh, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01169 Neema Goel, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01174 Ritu Singh, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01175 Kole Amruta Balasaheb, AAD, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01181 Venkata Nagalakshmi, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01183 Sandeepika Khara, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01184 Bindu Agnihotri, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01186 Bhingardev Reshma Chandrakant, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01188 Shailvi Singh, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01190 Priyanka Manhas, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01192 Ramandeep Kaur Mundi, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01194 Prerna Preeti, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01195 Ila, AOC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01203 Sasmita Mahapatra, AEC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Sep 06/18 Sep 08

01204 Jadhav Savita Rajaram, ASC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Mar 07/18 Mar 09

01207 Shyamali Arya, AEC, 18 Mar 06, WSES(O)-27(NT), 18 Sep 06/18 Sep 08

01136 Jhilmil M, AOC, 17 Sep 05, WSES(O)-26(NT), 17 Sep 06/17 Sep 08

JASWANT SINGH

Jt Dir  
MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 394, dated 2nd June 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub S Jothiraj (JC-193493L), 01 Jan 2009

Sub Prakash Chand Rana (JC-222634A), 01 Jan 2009

Sub S Thillai Chidambaram (JC-438200N), 01 Jan 2009

Sub Jeson Thapa (JC-204203L), 01 Apr 2009

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Radhey Shyam (JC-841215P), 01 Jan 2009

Nb Sub Suraj Bhan (JC-841218H), 01 Jan 2009

Nb Sub Rudra Datt (JC-841222L), 01 Jan 2009

Nb Sub Tarlok Singh (JC-203954A), 01 Feb 2009

Nb Sub Govind Singh, SM (JC-538738K), 01 Feb 2009

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Basalingayya Hiremath (JC-841708W), 01 Apr 2009

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 395, dated 2nd June 2009—The President is pleased to make the following appointments/promotions :—

To be Sub ARMR

Nb Sub Gaikwad Jaiwant Rawan (JC-758555Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Raja Ram (JC-760486M), 01 Nov 2008

Nb Sub Ashok Kumar P R (JC-760186L), 24 Nov 2008/01 Nov 2008\*

To be Sub ARTZN(EC)

Nb Sub Bharat Singh (JC-759135L), 01 Apr 2008

Nb Sub H C Chauhan (JC-759761P), 01 Aug 2008

Nb Sub Panjabi Jeet Singh Kushal Chand (JC-760385Y), 01 Dec 2008

Nb Sub Shiv Narayan Sharma (JC-760296A), 20 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Buddepu Jagdish (JC-760176F), 17 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Chandra Shashi Pokhriyal (JC-760175Y), 17 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Shivjee Ram (JC-760294P), 01 Nov 2008

Nb Sub Dinesh Prasad (JC-760170A), 01 Nov 2008

Nb Sub Jagat Singh (JC-760927X), 01 Dec 2008

Nb Sub Jagdish Chander Sharma (JC-760299N), 01 Dec 2008

Nb Sub Pramod Kumar (JC-760645Y), 01 Dec 2008

Nb Sub Shivnath Singh (JC-760300X), 01 Dec 2008

Nb Sub Anil Kumar Singh (JC-760386F), 03 Dec 2008/01 Dec 2008\*

To be Sub ARTZN(NE)

Nb Sub Shivaji Singh Raj Purohit (JC-759105N), 01 Oct 2008

To be Sub Clk(GD)

Nb Sub Atar Singh (JC-755727X), 01 Oct 2008

Nb Sub Chandra Pal (JC-755798Y), 01 Nov 2008

Nb Sub Brij Mohan (JC-755965K), 01 Nov 2008

Nb Sub Jarnail Singh (JC-756062Y), 01 Nov 2008

Nb Sub Subhay Kumar Srivastava (JC-755797W), 01 Nov 2008

Nb Sub Rashpal Singh (JC-756063F), 06 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Virender Singh Yadav (JC-756065M), 01 Dec 2008

To be Sub DW

Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-760431H), 02 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Nb Sub Awdesch Singh (JC-760110L), 01 Oct 2008/26 Jun 2008\*

Nb Sub Balbodh Mishra (JC-759745X), 01 May 2008

Nb Sub Ravindra Prasad Singh (JC-760560H), 06 Nov 2008/01 Sep 2008\*

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-760557H), 01 Sep 2008

Nb Sub Bhola Nath Pandey (JC-760716P), 01 Oct 2008

Nb Sub Dhanpat Singh (JC-760559M), 06 Oct 2008/  
01 Sep 2008\*

Nb Sub Khir Mohan Sarkar (JC-760504K), 23 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Mohd Ismail (JC-760664K), 10 Nov 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Indra Singh (JC-760568P), 05 Nov 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Ronanki Surya Narayana (JC-760941K), 01 Dec  
2008

Nb Sub Radhakrishnan Nair S (JC-761143H), 05 Dec 2008/  
01 Dec 2008\*

Nb Sub Rajendar Giri (JC-760445H), 04 Nov 2008/01 Aug  
2008\*

Nb Sub Khem Singh (JC-761022F), 08 Dec 2008/01 Dec  
2008\*

#### To be Sub Rec Mech

Nb Sub Bhala Chaudhary (JC-753959X), 01 Jul 2008

Nb Sub Subhash Chander (JC-754022Y), 02 Sep 2008/  
01 Sep 2008\*

Nb Sub Holambe Indrajit Panditra (JC-754027X), 01 Oct  
2008

#### To be Sub SKT

Nb Sub Sammu Singh Rathore (JC-756072H), 01 Oct 2008

Nb Sub Rajender Singh (JC-755733L), 27 Oct 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Sakokar Sunil Trimbak (JC-756112Y), 08 Nov  
2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Mahesh Chandra Sharma (JC-756113F), 01 Nov  
2008

Nb Sub Krishan Nand Ram (JC-755724K), 01 Nov 2008

Nb Sub Kundan Singh (JC-756114K), 01 Dec 2008

Nb Sub Harjeet Singh (JC-756118A), 01 Dec 2008

#### To be Sub Tech

Nb Sub Ajay Kumar Mehata (JC-758566L), 06 Dec 2008/  
01 Dec 2008\*

#### To be Sub Tech AVN

Nb Sub Ram Lal (JC-758345Y), 11 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Kritibas Garai (JC-758346F), 01 Dec 2008/01 Nov  
2008\*

Nb Sub Panchannana Samal (JC-757850P), 01 Nov 2008

Nb Sub Sirajuddin (JC-757849A), 12 Nov 2008/01 Nov  
2008\*

\*(Gtd ante dated seniority)

#### To be Sub ARTZN (EC)

Nb Sub Ram Krishna Pandey (JC-758217F), 30 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Ashokan M (JC-758277W), 01 Nov 2008

Nb Sub Brahm Dev (JC-758276N), 06 Dec 2008/01 Dec  
2008\*

#### To be Sub Tech

Nb Sub Babulal (JC-758991W), 17 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Trilochan Jena (JC-758213L), 23 Oct 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Narayan Majumdar (JC-758263W), 25 Nov 2008/  
01 Feb 2008\*

Nb Sub Karunakar Rana (JC-758023Y), 01 Oct 2008

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-758050H), 01 Oct 2008

Nb Sub Shankar Sarvankar (JC-758127A), 01 Oct 2008

Nb Sub Prem Sunder Sharma (JC-758038F), 01 Oct 2008

Nb Sub Ashok Kumar Sarkar (JC-758074M), 01 Oct 2008

Nb Sub Bhawan Singh Rai (JC-758208A), 08 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Nar Singh (JC-758176H), 01 Oct 2008

Nb Sub Sanjay Kumar Singh (JC-758224X), 01 Oct 2008

Nb Sub Sudhir Kumar Nayak (JC-758214N), 20 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Gajendra Singh Kushwah (JC-758026M), 23 Oct  
2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Rajbir Singh (JC-758209H), 31 Oct 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Anil Kumar Tripathi (JC-758080A), 12 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Nand Kumar (JC-758219M), 24 Oct 2008/01 Oct  
2008\*

Nb Sub Chandra Pratap Soni (JC-758262N), 25 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Harish Ram (JC-758215W), 01 Oct 2008

Nb Sub Pradip Jha (JC-758033H), 01 Oct 2008

Nb Sub Binala Puniya Pradhan (JC-758264Y), 29 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Lal Ram Deshmukh (JC-758216Y), 23 Oct 2008/  
01 Oct 2008\*

Nb Sub Amar Singh (JC-758218K), 29 Oct 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Rampal Yadav (JC-755952M), 29 Jan 2008/01 Dec 2007\*

Nb Sub Ramesh Singh (JC-757983L), 01 Aug 2008

Nb Sub Siva Das Ok (JC-757910Y), 04 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Nb Sub Ram Niwas Godara (JC-758266K), 01 Nov 2008

Nb Sub Sita Ram (JC-758308L), 06 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Ram Niwas (JC-758279F), 01 Nov 2008

Nb Sub K Armugam (JC-758272X), 01 Nov 2008

Nb Sub Surendra Singh Rawat (JC-758270M), 01 Nov 2008

Nb Sub Rajvir Singh (JC-758187P), 01 Nov 2008

Nb Sub Hari Kant Mishra (JC-758285P), 01 Nov 2008

Nb Sub Ram Narayan (JC-758280W), 01 Nov 2008

Nb Sub Akhileshwar Singh (JC-758267M), 01 Nov 2008

Nb Sub Bhupander Kumar Sharma (JC-758189A), 02 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Dhananjay Kumar Singh (JC-758265F), 01 Nov 2008

Nb Sub Magaram Karawasra (JC-758185K), 01 Nov 2008

Nb Sub W Narendra Waman Rao (JC-758274H), 03 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Gamani Ravi (JC-758273A), 01 Nov 2008

Nb Sub Manoj Kumar Mishra (JC-758186M), 01 Nov 2008

Nb Sub Ramakrishnan K (JC-758284M), 03 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Babu Lal (JC-757938Y), 07 Nov 2008/01 Oct 2008\*

Nb Sub Raj Pal Singh (JC-758184F), 03 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Mangat Ram (JC-758181N), 01 Nov 2008

Nb Sub Ravidutt (JC-758278Y), 01 Nov 2008

Nb Sub T Xavier (JC-758282F), 01 Nov 2008

Nb Sub Suresh Kumar (JC-758269X), 17 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Dwarka Prasad Rawat (JC-758370X), 21 Nov 2008/01 Nov 2008\*

Nb Sub Viveka Nanda Dutta (JC-758664L), 07 Dec 2008/01 Dec 2008\*

Nb Sub Gholapram Chandra Vasudev (JC-758414K), 01 Dec 2008

Nb Sub Seerapu Ananda Kumar (JC-758521L), 01 Dec 2008

Nb Sub Mohan Lal (JC-757898H), 01 Jul 2008/01 Jun 2008\*

\*(Gtd ante dated seniority)

#### REGULAR ARMY

#### ARMY ORDNANCE CORPS

#### To be Nb Sub

Hav (AT) Aji Mathew (No. 6930864A now JC-728323L), 01 Oct 2008

Hav (AT) Roshan Lal (No. 6931238H now JC-728324N), 01 Jan 2009

Hav (AT) Yashpal Singh (No. 6931251M now JC-728325W), 01 Jan 2009

Hav (AT) Sanjay Kumar (No. 6931259Y now JC-728326Y), 01 Jan 2009

Hav (AT) GS Sahadeo (No. 6931325W now JC-728327F), 01 Jan 2009

Hav (AT) DR Berwal (No. 6931344F now JC-728328K), 01 Jan 2009

Hav (AT) RBS Inder Singh (No. 6931350P now JC-728329M), 01 Jan 2009

Hav (AT) DA Ragho Ji (No. 6931358F now JC-728330F), 01 Jan 2009

Hav (AT) Jeevan Kumar (No. 6931237A now JC-728331K), 01 Jan 2009

Hav (AT) TS Nathawat (No. 6931241H now JC-728332M), 25 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) Sethu Madhavan P (No. 6931566W now JC-728333P), 13 Feb 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (AT) PG Shankar (No. 6931428P now JC-728334X), 01 Feb 2009

Hav (AT) TL Govind (No. 6931431P now JC-728335A), 01 Mar 2009

Hav (AT) Hari Kumar B (No. 6930845P now JC-728336H), 01 Mar 2009

Hav (AT) PR Pandurang (No. 6931438Y now JC-728337L), 01 Mar 2009

Hav (AT) Deva Kumar P (No. 6929827A now JC-728338N), 01 Apr 2009

Hav (AT) A Tirupathi Rao (No. 6931206A now JC-728339W), 01 Apr 2009

Hav (AT) SK Sinha M (No. 6931226N now JC-728340L), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) SC Paul (No. 6922982Y now JC-728341N), 08 Jan 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) Ashish Singh (No. 6923187L now JC-728342W), 23 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Suresh Kumar (No. 6923466W now JC-728343Y), 03 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) K Biswas (No. 6923468F now JC-728344F), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) PS Baghal (No. 6923470Y now JC-728345K), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) RK Gole (No. 6923471F now JC-728346M), 24 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) RB Shah (No. 6923474P now JC-728347P), 18 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) Jagdeesh Prasad (No. 6923482N now JC-728348X), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) Ramesh Kumar (No. 6923486K now JC-728349A), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) Vinod G (No. 6923491P now JC-728350P), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) JSR Purohit (No. 6923498Y now JC-728351X), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) RK Singh (No. 6923506M now JC-728352A), 01 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) CS Singh (No. 6922972P now JC-728353H), 19 Mar 2009

Hav (Clk S Cont) B Pradhan (No. 6921394Y now JC-728354L), 26 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 19 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) AN Rai (No. 6923517Y now JC-728355N), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Prov) Govind Singh (No. 6923554M now JC-728356W), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Prov) K Dasaradan (No. 6923581W now JC-728357Y), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) AB Khaliq Gani (No. 6923589H now JC-728358F), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Prov) Parkash Singh (No. 6923608H now JC-728359K), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) Dharambir Singh (No. 6923619P now JC-728360Y), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) Gas Rao (No. 6923681F now JC-728361F), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Cont) Triloki Rai (No. 6923715K now JC-728362K), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Cont) Kiran Chetia (No. 6923721X now JC-728363M), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Cont) Kishori Lal (No. 6923723H now JC-728364P), 01 Apr 2009

Hav (Clk S Cont) Atul Gogoi (No. 6923724L now JC-728365X), 01 Apr 2009

Hav (Clk GD) Ram Darash (No. 6923726W now JC-728366A), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) Arun Kumar Roy (No. 6923240L now JC-728367H), 01 Jan 2009

Hav (SKT Sig) SK Karan (No. 6923267H now JC-728368L), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) DN Palei (No. 6923270H now JC-728369N), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) CM Sethi (No. 6923286N now JC-728370H), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) PC Nahak (No. 6923293K now JC-728371L), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) SN Kar (No. 6923295P now JC-728372N), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) SK Samanta (No. 6923329X now JC-728373W), 26 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Sig) Jayantakar (No. 6923334H now JC-728374Y), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) UK Biswas (No. 6923335L now JC-728375F), 08 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Sig) KS Shankar (No. 6923357K now JC-728376K), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) S Roy (No. 6923362P now JC-728377M), 01 Mar 2009

Hav (SKT Sig) HK Sahoo (No. 6923368W now JC-728378P), 26 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Amn) Madhu G (No. 6923371W now JC-728379X), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) Jagdish Singh (No. 6923437F now JC-728380M), 27 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Ashok Kumar (No. 6923450L now JC-728381P), 27 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) RS Shishodia (No. 6923451N now JC-728382X), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) Rajender Singh (No. 6923452W now JC-728383A), 09 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) Mohinder Singh (No. 6923457P now JC-728384H), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) KPR Chandra (No. 6923467Y now JC-728385L), 01 Mar 2009

Hav (SKT GS&C) Vinod Kumar (No. 6923508X now JC-728386N), 01 Mar 2009

Hav (SKT Wep) A Devendrudu (No. 6923519K now JC-728387W), 28 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT GS&C) TS Yadav (No. 6923529N now JC-728388Y), 23 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SKT Wep) Mohan Singh (No. 6923550W now JC-728389F), 01 Apr 2009

Hav (SKT Wep) Bhanwar Lal (No. 6923551Y now JC-728390W), 01 Apr 2009

Hav (SKT Wep) Rajendra Singh (No. 6923553K now JC-728391Y), 01 Apr 2009

Hav (SKT Wep) MR Bishnoi (No. 6923557A now JC-728392F), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) G Singh (No. 6923559L now JC-728393K), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) PS Deora (No. 6923561H now JC-728394M), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) Ramlal Nagar (No. 6923562L now JC-728395P), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) TR Punia (No. 6923564W now JC-728396X), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) Mangal Singh (No. 6923568M now JC-728397A), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) DC Dimari (No. 6923571M now JC-728398H), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) SS Raw (No. 6923572P now JC-728399L), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) SJ Ahammad (No. 6923573X now JC-728400P), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) RKS Shishodia (No. 6923583F now JC-728401), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) Karan Singh (No. 6923584K now JC-728402A), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) OM Prakash (No. 6923585M now JC-728403H), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) HL Yadav (No. 6923592H now JC-728404L), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) Devendra Kumar (No. 6923604M now JC-728405N), 01 Apr 2009

Hav (SKT MT) Shabhan Khan (No. 6923610A now JC-728406W), 01 Apr 2009

Hav (SKT GS&C) Santokh Singh (No. 6923621M now JC-728407Y), 01 Apr 2009

Hav (SKT Sig) K Murthy (No. 6919430A now JC-728408F), 05 Apr 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr MT) MS Ansari (No. 6920300K now JC-728409K), 01 Feb 2009

Hav (Dvr MT) Subhash (No. 6920812W now JC-728410Y), 01 Feb 2009

Hav (Dvr Spl) CS Malik (No. 6921412W now JC-728411F), 01 Mar 2009

Hav (Dvr MT) S Muregesan (No. 6921637Y now JC-728412K), 30 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr MT) C Pandi (No. 6922482F now JC-728413M), 01 Mar 2009

Hav (Dvr MT) RC Doot (No. 6922665X now JC-728414P), 01 Mar 2009

Hav (Dvr MT) Om Prakash (No. 6922684H now JC-728415X), 01 Mar 2009

Hav (Dvr MT) Ashok Kumar (No. 6922792F now JC-728416A), 01 Mar 2009

Hav (Dvr MT) Umed Singh (No. 6922819Y now JC-728417H), 01 Mar 2009

Hav (SHT) Ramesh Chand (No. 6921208X now JC-728418L), 01 Apr 2009

Hav (SH GD) D Pandey (No. 6922328H now JC-728419N), 01 Nov 2008

Hav (SH GD) SBRK Gutte (No. 6922585A now JC-728420H), 01 Feb 2009

Hav (SH GD) Kanak CH Baro (No. 6922588N now JC-728421L), 01 Feb 2009

Hav (SH GD) Sudevan R (No. 6921722F now JC-728422N), 01 Feb 2009

Hav (SH GD) M Muniraj (No. 6922610N now JC-728423W), 01 Mar 2009

Hav (SH GD) Vijay Pal (No. 6922613F now JC-728424Y), 01 Mar 2009

Hav (SH GD) Gorakh Giri (No. 6922657Y now JC-728425F), 01 Apr 2009

Hav (CARPU) Vikram Singh (No. 6920013A now JC-728426K), 08 Mar 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

N. K. KASHMIRA  
Under Secy.

#### AIR BRANCH

No. 396, dated 2nd June 2009—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE AE BRANCH

To be Substantive Air Cmde (AE Branch)

Rank, Name, Number BR and Date

Air Cmde (ACTG) VD Galagali (15272), AE(L), 19 May 08

Air Cmde (ACTG) CS Sohoni (15472) AE(M), 02 Jun 08

#### EDN BRANCH

To be Substantive Air Cmde (EDN Branch)

Rank, Name, Number BR and Date

Air Cmde (ACTG) SV Mutalik (16275), EDN, 19 Feb 07

#### FLYING BRANCH

To be Substantive Air Cmde (Flying Branch)

Rank, Name, Number BR and Date

Air Cmde (ACTG) BS Dhanoa (15405), F(P), 24 Nov 08/  
01 Sep 07/(For Seniority Purpose only)

(His name will appear above Air Cmde as Bhonsle (15327) F(N) in the Combined Gradation List)

Air Cmde (ACTG) R Marwaha (15865), F(P), 07 Jul 08

(His name will appear above Air Cmde NK Tandon (16030) F(P) in the Combined Gradation List)

Air Cmde (ACTG) AK SINHA (16074), F(P), 03 Oct 08/  
15 Sep 08/(For Seniority Purpose only)

(His name will appear below Air Cmde A Lal (16031) F(P) in the Combined Gradation List)

Air Cmde (ACTG) A Verma (15410), F(P), 15 Sep 08

Air Cmde (ACTG) U Singh (16204), F(P), 12 Nov 08

(Their names will appear below Air Cmde DS Rawat (16242) F(N) in the Combined Gradation List)

#### AE BRANCH

To be Substantive Gp Capt (AE Branch)

Rank, Name, Number BR and Date

Gp Capt (ACTG) MSJ Pai (17630), AE(L), 16 Mar 08

(His name will appear below Gp Capt A. Sharma (17640) AE(L) in the Combined Gradation List)

Gp Capt (ACTG) MG Shetty (17664), AE(L), 19 May 08

Gp Capt (ACTG) TG Desai (17665), AE(L), 01 Oct 08/  
01 Aug 08 (NS)

Gp Capt (ACTG) K Vijay Kumar (17648), AE(M), 20 Oct 08

Gp Capt (ACTG) BM Kannur (18201), AE(M), 01 Nov 08

Gp Capt (ACTG) PK Choudhary (17828), AE(M),  
01 Nov 08

Gp Capt (ACTG) V Pande (17647), AE(M), 13 Oct 08/  
01 Dec 07

(His name will appear above Gp Capt P Mukherjee (17671) AE(L) in the Combined Gradation List)

Gp Capt (ACTG) RB Bhadang (17669), AE(L), 02 Jun 08

(His name will appear above Gp Capt TG Desai (17665) AE(L) in the Combined Gradation List)

Gp Capt (ACTG) NR Chitnis (17826), AE(M), 01 Dec 08

(His name will appear above Gp Capt PK Choudhary (17828) AE(M) in the Combined Gradation List)

KV SHANKAR

Jt Dir of Personnel (Officers)-2(B)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 397, dated 2nd June 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

Shri Ambika Prasad Ghosh to be Senior Admin Officer Grade-I, ITR, Balasore with effect from 01 Jan 2009 (F/N), Gp 'A', Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 6,600/-.

TABDURRASSAK

Jt Dir (Pers)

No. 398, dated 3rd June 2009—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef 01 Sep 2008 (F/N) as mentioned against each :-

Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay scale of promoted Grade (Pre-revised) (Rs.)
1	2	3	4	5
(Shri/Smt)				
KA Abdulsalam	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
MK Mathews	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
NK Ramachandran Nair	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
VR Sivadas	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Tessy Joseph	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Sunil PD	NPOL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
NB Asokan (SC)	NPOL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
Jacob Abraham	NPOL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
MR Ramachandran	NPOL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
PJ Maria Sparancia	NPOL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
K Manoharan	NPOL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
R Krishnan (SC)	NPOL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
VP Gopalakrishnan Nair	NPOL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
S Madhusudan	NPOL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
T Hemalatha	NPOL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
Govinda Raju	ADE	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
V Seetharaman	ADE	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
T Sridhar	ADE	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
YC Shankarappa (ST)	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Anita Murthy	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
S Sreedhar Reddy	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Ravi Ray SK	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
BV Sundra Murthy	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
R Varaprasada Rao	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
L Shamaiah	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Vincent Xavier	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
C James	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
V Murugesan (SC)	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
R Jagannathan	ADE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Mohd Amanulla Khan	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
KR Sampath Kumar	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
C Subbaiah (SC)	ADF	TO-A	TO-E	8,000-275-13,500/-
T Janaki Ram	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
Padma Sridhar	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
A Balamurugan (SC)	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-



1	2	3	4	5
A Jayachander (SC)	ADE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
B Venkataramani	ADE	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
M Sridharan (SC)	ADE	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
HS Manjunatha Rao	ADE	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
P Jayachandra Reddy	ADE	TA-C	TO	7,450-225-11,500/-
KM Sivadas	ADE	TA-C	TO	7,450-225-11,500/-
MD Ganeshachar	GIRE	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
AK Uma Shankari	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
S Visweswaran (SC)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
KC Hemanna (ST)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
V Anand (ST)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
R Kannan (SC)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
AR Revi (SC)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
UP Verma	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
DN Ravindra	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
K Raghavendra	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
DK Pushpa	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
Anil Kumar Yadav	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
TP Mannu (SC)	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
NM Kaverappa	GIRE	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
KM Marumalarchi (SC)	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
HM Abdul Sattar	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
S Anandappa (SC)	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
R Munireddy	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
P Sasi Kumar (SC)	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
ES Uma Shankar (SC)	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
PKA Geetha	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
J Chitra	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
Tiu Nirdosh Kumar (ST)	GIRE	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
MH Shivanandaiah	GIRE	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
C Narayanankutty	GIRE	TA-C	TO	7,450-225-11,500/-
VR Muralidharan Nair	GIRE	TA-C	TO	7,450-225-11,500/-
L Malleswari	DLRL	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
Y Uttra Kumari	DLRL	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
G Ranga Rao	DLRL	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
Y Anasurya	DLRL	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
J Ashok (SC)	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-

1	2	3	4	5
V Anuradha	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
C Nalini Jyothi	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
P Jaya Kumari (SC)	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
K Sridhar Rao	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
GH Babu	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
K Bharati	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
D Prabhakar	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
M Dattatreya	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
S Vidya Rani	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
B Anjaneyulu	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
C Hemalatha	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
A Rama Mohan	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
G Shankar (PHC)	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
M Murli Krishna	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
T Bheemraj Singh	DLRL	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
N Prameela Rani	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
M Savithri	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
AS Appa Rao	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
B Kannaiah (SC)	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
YV Jagadeswar	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
Y Seetha Mahalakshmi	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
V Shoba Rani	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
T Kusuma Kumari	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
DV Satyam	DLRL	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
K Jeevan Reddy	DLRL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
P Srinivas Rao	DLRL	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
K Prakash	DLRL	TA-C	TO	7,450-225-11,500/-
D Hanumantha Rao	RCI	TO-C	TO-D	12,000-375-16,500/-
R Jaisingh (ST)	RCI	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
RM Sairam	RCI	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
T Suryanarayana	RCI	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
S Nageshwar Rao	RCI	TO-B	TO-C	10,000-325-15,200/-
C Durgaprasad	RCI	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
K Gangadhara Tilak	RCI	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
VV Subrahmanyam	RCI	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
SS Basha	RCI	TO-A	TO-B	8,000-275-13,500/-
S Mudhusudhan	RCI	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
AK Chary	RCI	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-
Muthu Azhagan (SC)	RCI	STA-C	TO-A	7,450-225-11,500/-

BB SHARMA  
Jt Dir (Pers-I)

## ARMY BRANCH

No. 399, dated 3rd June 2009—The President is pleased to release the undermentioned Women Short Service Commissioned Officers in accordance with AI 11/S/64, with effect from the date noted against their names. The officers have been transferred to Regular Reserve of Officers (class S) with effect from the dates of their release for a period of 5 years or upto the age of 37 years whichever is earlier :—

REGULAR ARMY  
SHORT SERVICE COMMISSION

SS No., Name, Arm/Service and Date of release

WS-00263Y, Richa Rawat, Engrs, 06 Mar 2008  
WS-00268X, Babita Kanoujia, AEC, 06 Mar 2008  
WS-00286A, Sonika Srivastava, ASC, 06 Mar 2008  
WS-00290H, Sheelu Verghese, Engrs, 06 Mar 2008  
WS-00437N, Jaya Mary James, AOC, 31 Mar 2008  
WS-00607M, Meetu Sangha, AOC, 31 Jan 2008  
WS-00653F, R Gomathi, Signals, 27 Jan 2008  
WS-00670F, Puneet Kalyan, AOC, 10 Jul 2008  
WS-00739A, Parul Lingwal, Signals, 07 Mar 2008  
WS-00744L, Bindu Sharma, Signals, 07 Mar 2008  
WS-00747Y, Poonam Sawant, Signals, 07 Mar 2008  
WS-00749K, Aswani J, AOC, 07 Mar 2008  
WS-00755X, Babita Laxman, AOC, 07 Mar 2008  
WS-00759N, Arti, EME, 07 Mar 2008  
WS-00760H, X Mercyline, AOC, 07 Mar 2008  
WS-00762N, Gupta Deepshikha Har Swaroop, Engrs, 07 Mar 2008  
WS-00763W, Swati Sakpal, EME, 07 Mar 2008

WS-00764Y, Jiji UK, EME, 07 Mar 2008  
WS-00779F, Vidhya Kumari, Signals, 30 Jul 2008  
WS-00804P, Kannu Pathania, Jag, 05 Sep 2008  
WS-00806A, Ashwini N K, ASC, 05 Sep 2008  
WS-00817M, Nitigya Thakur, Int, 03 Oct 2008  
WS-00818P, Sherin Raj A, AOC, 05 Sep 2008  
WS-00826N, Neha Chaturvedi, ASC, 05 Sep 2008  
WS-00829F, Nidhi Kashyap, Int, 05 Sep 2008  
WS-00831Y, Sumisha Shankar, AOC, 05 Sep 2008

VS RANADE  
Col  
Col MS 7

## AIR BRANCH

No. 400, dated 3rd June 2009—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE  
AE BRANCH

## CORRIGENDUM

To be substantive Air Cmde (AE Branch)

Following amendment may be made in the DGN published in the Gazette of India dated 16 Jun 2007:—

Sl. No., Particulars of the Air Officer

8. Air Cmde (Actg) J Chandra (14613) AE(L)

For : Date — 02.01.06

Read : Date — 02.01.07

AK SINGH  
Dy Dir of Personnel (Officers)-2(B)